



5.2.4
Vishu

Memorandum of Understanding

Between

Inter University Centre for Teacher Education

(IUCTE), BHU, Varanasi

And

Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya

(SSVV), Varanasi

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (MoU) is entered on 25/12/2023 by and between:-

- (i) Inter University Centre for Teacher Education, (hereinafter referred to as "IUCTE") an autonomous Inter University Centre of UGC, Ministry of Education, Govt. of India located at Sundar Bagiya, Naria-BLW Road, BHU, Varanasi-221005
- (ii) Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, (hereinafter referred to as "SSVV") an autonomous State University of Uttar Pradesh Government, located at Jagat Ganj, Varanasi-221002

IUCTE and SSVV are referred to individually as "Party" and collectively as "Parties". All parties have reached the following broad areas of cooperation & collaboration intent.

WHEREAS, IUCTE, an Inter University Centre for Teacher Education (IUCTE), Inter-University Centre of the University Grants Commission of India under the Ministry of Education, Govt. of India, established by the University Grants Commission with an objective to become a Centre of Excellence in higher education through research and innovation in pedagogical and technological interventions, advisory and policy-making, global collaboration and networking for developing quality teachers.

AND WHEREAS, Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, located in Varanasi, India, is a State University dedicated to Sanskrit education and Research. Established to preserve and promote Sanskrit language, literature, and culture, it focuses on research and global collaboration. Committed to excellence, SSVV contributes significantly to the rich heritage of Sanskrit education in India.

The Inter University Centre for Teacher Education and Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya agree to cooperate in the following fields:

Chauhan *SSVV*

1- Scope of Collaboration

- Academic exchange in the areas of Research especially in the different fields of Bharatiya Gyan Parampara, lecture series, cultural and religious studies, Sanskrit and Indian Languages.
- Access to library facilities and manuscript resources through cooperation between the Library of IUCTE and the Library of Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi
- Data Sharing for Conducting the Research Projects
- Organization of Faculty Development Program(FDP), Continuous Professional Development Program.
- Exchange of researchers and teaching staff
- Conducting joint research projects
- Organisation of International Colloquia
- Regular exchange of documentary publications and teaching materials

2- Funding and Resource Allocation

Both parties may explore avenues for securing funding for collaborative projects through joint grant applications, sponsorships, and other sources. Resource allocation for specific projects will be decided on a case-to-case basis.

3- Exchange of researchers and teaching staff

The details of the exchange of Researchers and teaching staff shall be determined by both parties on a project-by-project basis. Both parties declare their willingness to give their invitees from the partner university every possible support during their stay.

4- Duration of the MoU

This MoU will be effective from the date of signing and will remain in force for a period of 5 years, Thereafter it shall be automatically extended for an additional period of 5 years unless either party provides written notice to terminate the agreement a minimum of one year prior to the date of expiry. Either party may terminate the cooperation

Chauhan *PK*

provided that notice is given at least six months in advance. Ongoing projects and exchanges may be completed before a termination becomes valid.


5- Confidentiality

Both institutions agree to maintain the confidentiality of sensitive information shared during the collaboration and to seek mutual consent before disclosing any information to third parties.

Inter University Centre for Teacher Education and Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya shall execute this agreement to the best of their knowledge and ability.

Place: Varanasi, India

Date of signing:



Sri Akash Chauhan
Administrative Officer
I.U.C.T.E., BHU, Varanasi
On behalf of Inter University Centre
for Teacher Education, Varanasi:



Prof. Prem Narayan Singh
Director

Place: Varanasi India

Date of signing:



Sri Rakesh Kumar
Registrar
S.S.V.V., Varanasi
On behalf of Sampurnanand Sanskrit
Vishvavidyalaya, Varanasi:



Prof. Bihari Lal Sharma
Vice Chancellor

Vice Chancellor
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi



5.2.4



①


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

By and Between

NEPAL SANSKRIT UNIVERSITY

and

SAMPURNANANDA SANSKRIT UNIVERSITY



SAMPURNANANDA SANSKRIT UNIVERSITY,

VARANASI-221002



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

By and Between

NEPAL SANSKRIT UNIVERSITY

and

SAMPURNANANDA SANSKRIT UNIVERSITY

This agreement is made and entered into by and between Nepal Sanskrit University located in Beljhundi, Dang, Nepal, hereafter referred to as "NSU" and Sampurnananda Sanskrit University, located in Varanasi, India, hereafter referred to as "SSU". The parties hereto agree as follows:

I. Philosophical Intent

a. The primary objective of this agreement is the development of cooperative efforts between the SSU and the NSU, which will enhance the academic interchange between the two institutions. Recognizing the importance of mutual collaboration and the contributions to society made by institutions of higher education, the parties desire to promote exchange between the faculty and students of the two institutions as well as the exchange of academic and research information.

b. Specific projects in areas of educational interest (e.g. workshops, seminars etc.) will be selected as a result of coordination by NSU and SSU at appropriate administrative level in each institution. As these projects are developed, each will require a specific written agreement made in advance, setting forth the terms and conditions thereof and executed by authorized representatives for each institution.

II. General Provisions

a. All research and other collaborative activities conducted pursuant to this agreement shall be conducted in accordance with the laws and regulations appropriate to each institution. In case of the NSU, there are the laws of Nepal Government and the rules of the Nepal Sanskrit University. In case of the SSU, these include the rules and regulations of the university and and the federal and state government of India.



b. This agreement shall take effect when executed by the parties and will be valid for 5 years thereafter. The agreement may be renewed or amended by written mutual agreement. Either party may terminate this agreement by giving a written notice 60 days prior to the other party.

c. All notices with respect to this agreement shall be provided to the parties as indicated on Appendix A hereto, entitled "Administration of Programme and Contact Information," which is incorporated by reference herein.

III. Specific Details

The collaboration of the SSU and NSU shall include the following provisions:

- a. Yearly meetings between the representatives of the Universities to decide on joint activities.
- b. Joint seminars, workshops and the possible exchange of members, visiting researchers, faculty and students, manuscript research, and short term intensive courses.
- c. Providing facilities for cooperation on work basis and availability of funds and resources.
- d. Joint work on unpublished manuscripts available in the archives of Nepal and India (especially the Saraswati Bhavan Pustakalaya, SSU)
- e. Preservation of the ancient Indic sciences and philosophies, along with the promotion of study of Sanskrit in both the countries.



IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have executed two copies of this instrument each of which shall be considered an original, in the presence of two witnesses whose signatures also appear below.

NEPAL SANSKRIT UNIVERSITY SAMPURNANANDA SANSKRIT UNIVERSITY

कशी नथ न्यापाने

Kashi Nath Nyaupane
Executive Director
Research Center, NSU

Date: 2019/4/10

हरिप्रसाद अधिकारी

Prof. Hariprasad Adhikari
Director, Research Institute, SSU

Date: _____

WITNESSED BY

कुल प्रसाद कोइराला

Prof. Dr. Kul Prasad Koirala
Vice Chancellor, NSU

Date: 2019/4/10

राजाराम शुकला

Prof. Rajaram Shukla
Vice Chancellor, SSU

Date: _____



APPENDIX A

ADMINISTRATION OF PROGRAM AND CONTACT INFORMATION

NSU –Administration of this agreement is the direct responsibility of the Research Director. Correspondence regarding these matters should be directed to:

Nepal Sanskrit University
Prof. Dr. Kashi Nath Nyaupane
Executive Director
Research Center
Kathmandu, Nepal
Phone: +977-9841356129
e-mail: kashinathguru@gmail.com

SSU– Administration of this agreement is the direct responsibility of the Director, Research Institute, SSU. Correspondence regarding these matters should be directed to:

Prof. Hariprasad Adhikari
Director, Research Institute,
Sampurnanand Sanskrit University,
Varanasi-221002
Phone – 09451894408
E-mail : hariprasadsanskritam@gmail.com

9



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

**MAHATMA GANDHI INSTITUTE
(MAURITIUS)**

AND

**SAMPURNANAND SANSKRIT UNIVERSITY
(INDIA)**

Memorandum of Understanding (MoU)

Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, India a State (Uttar Pradesh) Government funded University inaugurated in the year 1958 (initially established in year 1791 as Banaras Sanskrit Pathashala) hereinafter referred to as "SSU", and the Mahatma Gandhi Institute, Moka, Mauritius set up in 1970, hereinafter referred to as "MGI", jointly referred to as "the parties" and in the singular as "Party", with a view to strengthening academic and cultural ties between them hereby affirm their intent to promote Indian cultural traditions, education and culture generally and agree to jointly enter into the following Memorandum of Understanding (MoU) -

Terms of Collaboration

- 1.1. The parties shall enter into a collaborative academic exchange programme, as per the rules and regulations governing the parties, in order to facilitate exchange of scholars and experts and exchange of research, teaching and reading materials (prescribed in their syllabuses) in the fields of Sanskrit and Indology
- 1.2. SSU shall provide:-
 - (a) assistance to organize refresher courses, training and workshops for staff and students in the relevant fields;
 - (b) expertise to MGI to jointly develop new areas of study, research and new courses suiting the needs of the local and regional contexts;
 - (c) exchange of students;
 - (d) exchange of staff; and
 - (e) assistance to organize workshops in spoken Sanskrit.
- 1.3. The parties shall work towards promoting academic growth (both for short term and long term) of both institutions.
- 1.4. The Parties shall undertake projects for creation of new knowledge by translation of Sanskrit *Shastras* in French and *Kreol Morisien*, etc.
- 1.5. The parties shall endeavour to create a Sanskrit corpus by curating documents/manuscripts from pre-independence to modern day Sanskrit writers/authors/missionaries/poets, thereby highlighting the role of MGI in preserving and developing ancestral heritage through Sanskrit in the Indian diaspora.

- 1.6 The parties shall encourage exchange of students/young scholars (for project related research/MPhil/PhD programmes) thus fostering a mutual interest in areas of common interest to both parties.
- 1.7. The parties shall strive to work on joint projects in order to open new avenues for research with possibility of access to the libraries of both the parties as per their rules and regulations.
- 1.8. The parties shall co-author books/booklets jointly in relevant areas of mutual interest.

2.0 Programme Financing

- 2.1 where a party invites academic staff, it shall meet the relevant expenditure, as mutually agreed.
- 2.2 The assistance of funding institutions such as the University Grants Commission (UGC), Indian Council for Cultural Relations (ICCR), etc. may be sought by both parties, whenever feasible.
- 2.3 The parties shall provide physical facilities, including venues for seminars, workshops, etc, whenever needed.
- 2.4 Both parties shall be free to seek and obtain financial assistance from sources other than those covered under this MoU.

3.0 Entry into force, duration and termination

- 3.1 This MoU shall enter into force on the date of its signature and shall be valid for a period of 3 years.
- 3.2 This MOU may be extended in due course, subject to the mutual agreement of the parties.
- 3.3 This MoU shall remain into force until it is terminated by either party giving to the other party at least six months' notice in writing of its intention to terminate this MoU.
- 3.4 The termination of this MoU shall not affect the implementation of any ongoing activities or programmes agreed upon prior to the termination of this MOU, unless the Parties agree otherwise.

4.0 Amendments

- 4.1 This MOU may be amended by mutual consent of the parties and any amendment shall enter into force upon signature by both parties.

5.0 Residual Issues

5.1 Non-exclusivity

It is understood between the parties that this arrangement is a non-exclusive arrangement and that both parties shall be free to enter into similar arrangements with other organizations.

5.2 Involvement of third parties

This MoU concerns collaboration only between the parties. Accordingly, a separate set of arrangements will have to be drafted, after mutual consultations, to involve a third party in this collaborative activity.

5.3 Clearances and approvals

It is understood between the parties that this MoU is subject to such clearances/approvals as may be necessary from the appropriate authorities from either side.

5.4 Confidentiality and Non-disclosure

Both Parties agree to keep the terms and the execution of this MoU as confidential and not to disclose the particulars of same to any third party.

5.5 Dispute Resolution

It is agreed between the parties that any dispute arising out of the interpretation or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultation, negotiation, or both, between the parties.


In witness whereof, the undersigned have signed and sealed this Memorandum of Understanding in duplicate, in the English language, both copies being equally authentic.

Singed in two copies on this 2nd day of September 2019

**For the Mahatma Gandhi Institute
Mauritius**

Signature: 

**Mr Jaynarain Meeloo
Chairperson, MGI & RTI Council
Mahatma Gandhi Institute
Moka, Mauritius**


Signature: 

**Mrs. Sooryakanti Nirsimloo Gayan, GOSK
Director General (MGI & RTI)
Mahatma Gandhi Avenue
Moka, Mauritius
Email - directorgeneral@mgi.ac.mu**

For Sampurnanand Sanskrit University

Signature: 

**Professor Rajaram Shukla
Vice-Chancellor
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi - 221002, India
Email - vc.ssvv@gmail.com**

Signature: 

**Prof. Hariprasad Adhikari
Director, Research Institute
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi - 221002, India
Email - hariprasadsanskritam@gmail.com**

3


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi

AND

Sanskrit Promotion Foundation



13.04.2021

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU" is signed on 13.04.2021 and will come into operation after signature (hereinafter referred to as the "Effective Date").

BETWEEN

Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya [SSVV], previously called "Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya, renamed under the U.P. State University Act, 1973, w.e.f. 16th Dec 1974 situated at Varanasi, UP 221002 (India) (hereinafter referred to as "SSVV");
AND

Sanskrit Promotion Foundation [SPF] also called "Sanskrit-samvardhana-prathiharanam" an NGO, registered as Trust (www.sanskritpromotion.in) having its office at 11204/5, 2nd Floor, Gaushala Marg, Dohwalan, Delhi 110006

BACKGROUND:

- (A) WHEREAS SSVV has been mandated to take all such steps as it may think fit for Conservation and Preservation of Manuscripts at the Saraswati Bhavan Library [SBL] at SSVV, Varanasi. This ancient manuscript library needed attention and this concern appeared as a news article. This article was shared on Social Media by Shri Chamu Krishna Shastri and widely retweeted by Sanskrit enthusiasts.
- (B) WHEREAS SPF through Trustee Secretary Shri Chamu Krishna Shastri and Trustee Shri S Gurusurthy were contacted by Infosys Foundation (Herein after referred as Donor Institution or DI) which wanted to understand the details. Mr. Chamu Krishna Shastri explained the status to the Chair Person of the Infosys Foundation, Mrs Sudha Murty. After multiple conference calls with Prof. Rajaram Shukla, the Vice-Chancellor, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and other University Officials and SPF, Infosys Foundation expressed its willingness to support in the Preservation of the Manuscripts.
- (C) WHEREAS This collaboration is built for Preservation of Manuscripts at Saraswati Bhavan Library.
- (D) WHEREAS Donor Institution has agreed to extend financial support, through Sanskrit Promotion Foundation, (Project Executing Institution). Librarian, Saraswati Bhavan Library, SSVV will be the Chief Project Manager. Executive Officer, SPF shall be Chief Coordinator between all the institutions, SPF through its representatives will be taking care of Manpower & Material support for the Project.
- (E) WHEREAS the SSVV shall provide all necessary access permissions and other infrastructure supports like enclosed work area, storage space for the manpower to execute the project.



- (F) **WHEREAS** the Project period is for 12 months from April 2021. Project period may be extended on written mutual consent subject to acceptance by the donor institution. SPF representative shall remain physically present in the Library during the office time. Representative from SSVV shall be present during the working hours. If need arises, occasionally SPF representative may be required to work beyond regular working hours and/ or on holidays. SSVV will ensure presence of at least one of its regular staff in Library during such exigencies.
- (G) **WHEREAS** SPF will submit regular Project Reports to the Donor Institution, necessary and sufficient details for the report shall be provided by SBL/SSVV.
- (H) **WHEREAS** terms of Donor Institution with SPF (Executing Institution) shall form part of this MoU and those terms shall be explicitly mentioned.
- (I) **WHEREAS** SSVV also agrees to provide access and permission to representative of Donor Institute for inspection during and up to three months after the completion of Project.

THE PARTICIPANTS HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDINGS:

1. This MoU sets out the framework for SSVV and SPF to execute this project to preserve the Manuscripts at Saraswati Bhavan Library SSVV, Varanasi.
2. SBL/SSVV and SPF have decided to work jointly during the Project Period to preserve the manuscripts of SBL.
3. SPF will deploy its representatives. Access to Library and Infrastructure shall be provided by SBL/SSVV during the office hours and extended duration if required on mutual consent.
4. SPF will identify a team leader who will interact with the Librarian or his authorized representative. SBL/SSVV shall also identify a coordinator with necessary authority for day to day interaction.
5. SPF deployed representatives shall undertake activities identified under the project only. SPF team members shall not undertake any activity beyond the scope of this agreement. Team leader deployed at SBL/SSVV shall own this responsibility.
6. SBL/SSVV shall provide un-hindered access to Project Team Identified by SPF. Details of the team members shall be provided to other party.
7. Necessary workplace, workbenches & sitting place, chairs, access to common utilities like, toilets, water etc., shall be provided by SBL/SSVV.
8. A board shall be displayed at the project site, acknowledging both Infosys Foundation and Samskrit Prarnaitan Foundation. "Project for Preservation and



Conservation of Manuscripts at Saraswati Bhavan Library - Infosys Foundation Supported Project of Samskrit Promotion Foundation"

9. SSVV and SPF have undertaken this project with the help of Grant from Infosys Foundation. Following terms from the Grant agreement shall form part of this agreement.
- I. Grant shall be used for the specific purpose only. (Preservation of Manuscripts at Saraswati Bhavan Library)
 - II. Project shall start immediately upon receipt of Grant.
 - III. The agreement shall remain in force till the completion of project activities.
 - IV. Representative of Donor Institution may visit the Project site by giving reasonable notice.
 - V. Infosys Foundation may suspend or terminate the agreement by giving a notice of 30 days.
 - VI. A banner or board mentioning "Supported by Infosys Foundation" shall be displayed in SBL/SSVV campus, Workshops, webinars and Training Programs related to this project.
 - VII. Infosys may mention this "Grant" in their publicity, fundraising activities.
 - VIII. Photos & Video of the project work in progress may be submitted to them for promotion.
 - IX. Project Report on the progress shall be submitted periodically as required.

10. Copyright & IPR

SBL/SSVV is the owner of the manuscripts and they hold all the rights and there is no change due to this preservation project on the same. SPF will remain engaged with SBL/SSVV for the limited period for 'Preservation of Manuscripts Project' for the period agreed in this MoU or agreement.

11. Publicity and Displaying the Project Work :

Details on this project might be displayed in the websites of SPF, Infosys foundation & SSVV without seeking any explicit permission from other parties. The Project Progress data collected might be used by Infosys Foundation (DI) for fund raising or promotional purpose.

12. Suspension :

Both the parties may for reasons of national security, national interest, public order or public health suspend temporarily either in whole or in part the implementation of this MoU after informing the other party. The suspension shall take effect immediately after written notification has been accepted by all.

13. Settlement of disputes :

This MoU is not intended to create any legal obligations between the Parties. Any difference or dispute concerning the interpretation and/or implementation and / or application of any of the provisions of this MoU will be settled amicably.



through mutual consultation and/ or negotiation between the Participants, without reference to any third party or court.

14. Arbitration

SSVV and SPF shall make every attempt to resolve dispute amicably, by direct information, negotiations of any disagreement or dispute arising between them under or in connection with this Memorandum of Understanding (MoU). All differences or disputes arising under and out of these present or in connection with this MoU shall be first referred to the senior executives of each party for an amicable solution. If the dispute is not resolved within a period of thirty (30) days, the same be referred to arbitration in accordance with Arbitration and Conciliation Act, 1996 (including all amendments thereto). Each party shall appoint one arbitrator each and the two appointed arbitrators shall appoint the third arbitrator. The decision of the arbitrators shall be final and binding on both parties. The venue of arbitration shall be in state of Uttar Pradesh, India. Subject to the above, this MoU shall be subject to the jurisdiction of the Courts in Uttar Pradesh, India.

15. Effective Date, Duration and Termination :

This MoU will come into operation from the Effective Date and will continue for a period of thirteen (1+12) months. First month is mainly for preparatory work like recruitment & training (hereinafter referred to as "Term"). Thereafter, both Participants will review the status of this co-operation and may extend the Term on such provisions as mutually decided upon.

Either Participant may terminate this MoU by notifying the other Participant in writing at least thirty (30) days in advance of such termination.

16. Nothing contained herein will be interpreted or construed as establishing a relationship of master and servant or of Principal and Agent or of employer and employee or to impose any partnership obligation or joint venture or liability upon either Participant.

Signed by :

For Saraswati Bhavan Library/SSVV
Varanasi, Uttar Pradesh

राजशंकर
13.4.21

Name, Designation & address:

Vice Chancellor

संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानम्
VARANASI

1. आचार्य कुमार शंकर

13.4.21

आचार्योपस्थानम्

ज्योतिष विभागम्

संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानम्
वाराणसी

For Samskrit Promotion Foundation
New Delhi

चमू कृष्णाभास्ट्री

CHAMU KRISHNA BHASTRY
Trustee Secretary & address:
संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानम्
SANSKRIT PROMOTION FOUNDATION
Vedabhavanam, 11204/5, 2nd Floor
Gaushala Marg, Daryawala, Delhi-110006
Phone : 011-23032323

Witness:

1. Shree 13/4/21

LAKSHMINARASIMHAN K.
Executive Officer

संस्कृत-संवर्धन-प्रतिष्ठानम्
SANSKRIT PROMOTION FOUNDATION
Vedabhavanam, 11204/5, 2nd Floor
Gaushala Marg, Daryawala, Delhi-110006
Phone : 011-23032323

THE DIVINE LIFE SOCIETY (REGD.)

(ESTABLISHED: 1936)

Propagates Yoga and Vedanta and the Ethical and Spiritual Culture of India. Promotes Universal Love, the Unity of Religions, the Ideal of Brotherhood, and the Spirit of Service among Mankind.

(Founder: H.H. SRI SWAMI SIVANANDA)

P.O. SHIVANANDANAGAR - 201302, DEHLE, TEHRGARHIVAL, UTTARAKHAND, HIMALAYAS, INDIA

Phone: (DEL) 2430010, Fax: (DEL) 2420016, Rly. Stn.: RESHIKESH, N.Rly.)

website: www.sivanandaonline.org E-mail: generalsec@136@sivanandaonline.org

Ref: G.S/

SPEED POST

10 September 2019

To:

Prof. Rajaram Shukla, Vice-Chancellor,
Sampurnanand Sanskrit Viswavidyalaya,
VARANASI,
Uttar Pradesh-221002.

Sub: "Swami Sivananda Memorial Scholarship for Sanskrit Studies".
Acceptance of Memorandum of Understanding.

Ref. Your letter VC 1213/129/2019 dated 05/09/2019.


Blessed Divinity,

Om Namo Narayanaya.
Pranams and warm greetings.

We are in receipt of the MoU signed by your good self. We are sending herewith two copies of the MoU signed by us also, for your records.

We request you to kindly inform us the names and year of study of the students soon after selection for the award of the "Swami Sivananda Memorial Scholarship" to enable us to release the amount to the Viswavidyalaya for distribution.

With regards
Yours, in the Lord,



Swami Padmanabhananda
General Secretary

Encl: MoU duly signed by both parties - 2 copies.
Sacred Prasad



Memorandum of Understanding


between

Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya,

Varanasi, Uttar Pradesh-221002

a premier institution dedicated to the study of Sanskrit;

and



The Divine Life Society (Sivanandashram),

PO-Shivanandanagar, Rishikesh, Dist-Tehri-Garhwal, Uttarakhand-249192

a spiritual and charitable organization established by the

illustrious saint Sri Swami Sivananda.

Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding is made this day,
the 8th September 2019,

between

Sampurnanand Sanskrit Viswavidyalaya,
Varanasi, Uttar Pradesh-221002,
(hereinafter referred to as SSVV),
a premier institution dedicated to the study of Sanskrit;

and

The Divine Life Society (Sivanandashram), with its Headquarters at
PO-Shivanandanagar, Rishikesh, Dist-Tehri-Garhwal, Uttarakhand-249192,

(hereinafter referred to as DLS),

a spiritual and charitable organization established by the
illustrious saint Sri Swami Sivananda.

-
1. The Scholarship shall be named as "Swami Sivananda Memorial Scholarship for Sanskrit Studies".
 2. Students studying Shastri (3-year) courses in the seventeen (17) Departments of SSVV are eligible for the Scholarship.
 3. One student from each year of study of the 3-year Shastri courses in all 17 disciplines shall be eligible for the Scholarship. Thus there will be 51 no. scholarships (17 x 3), and the Scholarships will be ₹ 10,000/- per student.
 4. The DLS shall initially provide Scholarships under this programme for 3 Academic years, from 2019-2020 to 2021-2022.
 5. To begin with, the first installment of ₹ 5,10,000/- will be provided for the year 2019-2020. The second and third installments shall be given in the respective years on request by the SSVV.

6. The SSVV shall select the eligible candidates for the Scholarships based on the academic performance and financial background of the students, as well as other norms as per the rules and procedures followed by SSVV.

7. The Vice-Chancellor of SSVV, or anyone authorised by the SSVV, shall inform the DLS every year of the name and address of the students selected for the award of Scholarship, to enable the DLS to provide the required amount of ₹ 5,10,000/- to be paid to the students selected.

8. The SSVV, on receipt of the cheque, shall award the Scholarship amount to the selected students and inform the DLS of the payments made for their record.

9. The decision of the SSVV shall be final in the matter of selection of students and the award of scholarships as per rules, terms and conditions. In case of ambiguity or controversy in the process of award or disbursement of the "Scholarship", the decision of the Vice-Chancellor of SSVV shall be final.

10. In the event of this Scholarship programme becoming non-operational due to some reason as per this MoU, the SSVV agree to return the amount to the DLS.


This Memorandum of Understanding is jointly signed by the General Secretary, on behalf of The Divine Life Society (Sivanandashram), P.O. Shivanandanagar, Dt. Tehri Garhwal, Uttarakhand-249192, and by the Vice-Chancellor of Sampurnananda Sanskrit Viswavidyalaya, Varanasi, Uttar Pradesh-221002.

For DIVINE LIFE SOCIETY



Swami Padmanabhyananda
General Secretary

Swami Padmanabhyananda,
General Secretary,
The Divine Life Society (Sivanandashram),
P.O. Shivanandanagar,
Dist. Tehri-Garhwal,
Uttarakhand-249192.



Prof. Rajaram Shukla,
Vice-Chancellor,
Sampurnanand Sanskrit Viswavidyalaya
Varanasi,
VARANASI,
Uttar Pradesh-221002.



दैनिक जागरण

अनुबन्ध पत्र

दैनिक जागरण
"ज्ञानसेतु"

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

एवं

जागरण प्रकाशन लिमिटेड नई दिल्ली

के मध्य



अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ.प्र. (सं.सं.वि.वि.) एवं जागरण प्रकाशन लिमिटेड (जा.प्र.लि.) नई दिल्ली के मध्य किया जा रहा है।

1. पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य -

वैदिक वाङ्मय आधुनिकतम ज्ञान एवं विज्ञान के प्रायः समस्त अध्ययनों एवं अनुसंधानों का मूल स्रोत माना जाता है। अध्यात्म के साथ-साथ विज्ञान एवं तकनीकी के विकास में भी इसकी भूमिका सर्वमान्य रूप से प्रमाणित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जनसामान्य के लिए हितकारी अनेक विषयों का भण्डार इसमें संरक्षित है। तकनीकी भाषा एवं शैली की असाधारणता के कारण दुरवबोध होने के कारण इसमें निहित ज्ञान राशि को सर्वसुलभ कराने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रस्तुत अनुबन्ध इसी दिशा में एक सार्थक प्रक्रम है। अनुबन्ध के प्रमुख उद्देश्य होंगे -

- (क) संस्कृत शास्त्रों से अपरिचित किन्तु ज्ञान की अन्य विधाओं में निष्णात विद्वानों को शास्त्रों में निहित ज्ञान राशि से परिचित कराना।
- (ख) पारम्परिक शास्त्रों के वास्तविक अर्थ को सरल भाषा एवं शैली में जन सामान्य तक पहुँचाना।
- (ग) शास्त्रों के सम्बन्ध में प्रचलित भ्रान्तियों का निराकरण करना।

2. प्रविधि -

- (क) चुने हुए शास्त्रीय ग्रन्थों का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक अनुवाद। प्रथम चरण में हिन्दी-अनुवाद प्रस्तावित है, तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार अन्य प्रान्तीय तथा वैदेशिक भाषाओं में भी अनुवाद किया जा सकता है।
- (ख) लोकोपयोगी शास्त्रीय विषयों पर सरल भाषा में लघु पुस्तिकाओं की रचना।

प्रधान क्षेत्र- प्राचीन भारतीय विद्या एवं कलाएँ।

संचालन -

- (क) कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी सम्पूर्ण प्रकल्प का निदेशक होगा, जिसके अधीन एवं संचालन समिति होगी, जिसमें दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
- (ख) ग्रन्थों एवं अनुवादक विद्वानों के चयन हेतु एक विशेषज्ञ समिति होगी।
- (ग) अनुवादक निश्चित अन्तराल में प्रगति विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसका मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा।



- (घ) प्रकल्प से सम्बन्धित समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ सं.सं.वि.वि. से नियंत्रित होंगी तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था जा.प्र.लि. द्वारा की जाएगी।
- (ङ) प्रकल्प के अधीन तैयार ग्रन्थों का प्रकाशन सं.सं.वि.वि. अथवा जा.प्र.लि. अथवा किसी अन्य संस्थान द्वारा किया जाएगा। प्रकाशन से प्राप्त आय का विभाजन संचालन समिति के निर्णयाधीन होगा।
- (च) प्रकाशित पुस्तकों पर दोनों संस्थाओं के नाम व मोटो मुद्रित होंगे।
- (छ) प्रकल्प के संचालनार्थ एक कार्यालय होगा जो सं.सं.वि.वि. में स्थित होगा।
- (ज) प्रकल्प संयोजक की नियुक्ति कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा की जाएगी।
- (झ) अनुबन्ध पत्र में वर्णित बिन्दुओं में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन एवं परिवर्धन दोनों पक्षों की सहमति से किया जा सकेगा।
- (ञ) प्रथमतः यह अनुबन्ध तीन वर्षों के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

हस्ताक्षर

डॉ. पद्माकर मिश्र
निदेशक प्रकाशन संस्थान
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी - 221002
दूरभाष: 9415620361

प्रशांत कश्यप
उप महाप्रबंधक
जागरण प्रकाशन लिमिटेड
50, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-3
नई दिल्ली - 110020
दूरभाष: 011-30820300

साक्षी

प्रो. राजाराम शुक्ल
कुलपति
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी - 221002
दूरभाष: 9140191192
Email : vc.ssvv@gmail.com

विवेन्द्र कुमार
निदेशक
जागरण प्रकाशन लिमिटेड
वाराणसी



Memorandum of Understanding


between

Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya,

Varanasi, Uttar Pradesh-221002

a premier institution dedicated to the study of Sanskrit;

and



The Divine Life Society (Sivanandashram),

PO-Shivanandanagar, Rishikesh, Dist-Tehri-Garhwal, Uttarakhand-249192

a spiritual and charitable organization established by the

illustrious saint Sri Swami Sivananda.

Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding is made this day,
the 2nd September, 2019,

between

Sampurnanand Sanskrit Viswavidyalaya,

Varanasi, Uttar Pradesh-221002,

(hereinafter referred to as SSVV),

a premier institution dedicated to the study of Sanskrit;

and

The Divine Life Society (Sivanandashram), with its Headquarters at
PO-Shivanandanagar, Rishikesh, Dist-Tehri-Garhwal, Uttarakhand-249192,

(hereinafter referred to as DLS),

a spiritual and charitable organization established by the
illustrious saint Sri Swami Sivananda.

1. The Scholarship shall be named as "Swami Sivananda Memorial Scholarship for Sanskrit Studies".

2. Students studying Shastri (3-year) courses in the seventeen (17) Departments of SSVV are eligible for the Scholarship.

3. One student from each year of study of the 3-year Shastri courses in all 17 disciplines shall be eligible for the Scholarship. Thus there will be 51 no. scholarships (17 x 3), and the Scholarships will be ₹ 10,000/- per student.

4. The DLS shall initially provide Scholarships under this programme for 3 Academic years, from 2019-2020 to 2021-2022.

5. To begin with, the first installment of ₹ 5,10,000/- will be provided for the year 2019-2020. The second and third installments shall be given in the respective years on request by the SSVV.

6. The SSVV shall select the eligible candidates for the Scholarships based on the academic performance and financial background of the students, as well as other norms as per the rules and procedures followed by SSVV.

7. The Vice-Chancellor of SSVV, or anyone authorised by the SSVV, shall inform the DLS every year of the name and address of the students selected for the award of Scholarship, to enable the DLS to provide the required amount of ₹ 5,10,000/- to be paid to the students selected.


8. The SSVV, on receipt of the cheque, shall award the Scholarship amount to the selected students and inform the DLS of the payments made for their record.

9. The decision of the SSVV shall be final in the matter of selection of students and the award of scholarships as per rules, terms and conditions. In case of ambiguity or controversy in the process of award or disbursement of the "Scholarship", the decision of the Vice-Chancellor of SSVV shall be final.

10. In the event of this Scholarship programme becoming non-operational due to some reason as per this MoU, the SSVV agree to return the amount to the DLS.


This Memorandum of Understanding is jointly signed by the General Secretary, on behalf of The Divine Life Society (Sivanandashram), P.O. Shivanandanagar, Dt. Tehri Garhwal, Uttarakhand-249192, and by the Vice-Chancellor of Sampurnananda Sanskrit Viswavidyalaya, Varanasi, Uttar Pradesh-221002.

For DIVINE LIFE SOCIETY



Swami Padmanabhananda
General Secretary

Swami Padmanabhananda,
General Secretary,
The Divine Life Society (Sivanandashram),
P.O. Shivanandanagar,
Dist. Tehri-Garhwal,
Uttarakhand-249192.



Prof. Rajaram Shukla,
Vice-Chancellor,
Sampurnanand Sanskrit Viswavidyalaya
Varanasi,
VARANASI,
Uttar Pradesh-221002.

प्रो० गङ्गाधर पण्डा

कुलपति

कोल्हान विश्वविद्यालय

चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम,

झारखण्ड - 833202

फोन : 9508970126



Prof. Gangadhar Panda

Vice-Chancellor

KOLHAN UNIVERSITY

CHAIBASA, WEST SINGHBHUM

JHARKHAND - 831202

M. 9508970126

Website - www.kolhanuniversity.ac.in

E-mail - vckolhanuniv@gmail.com

Ref: KUVC/...../20

Date: 15/10/2020

To,

The Vice-Chancellor

Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya,

Varanasi - 221002, U. P., INDIA

Reference: the Memorandum of Understanding (MoU) between Kolhan University, Chaibasa and Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi

Sir,

Greeting from Kolhan University, Chaibasa

Thanks for accepting our proposal for academic and cultural exchange program with your esteemed university. I have prepared the possible Memorandum of Understanding in this regard. Two signed copy MoU are attached herewith.

Hope this would start a new era for the academics, research & academic leadership of both the universities and enrich the cultural exchange & traditional values of the people of both the states.

I request you to kindly send one of the signed copy of the MoU to the undersigned.

Thanks & Regards

Prof. (Dr.) Gangadhar Panda

Vice-Chancellor,

Kolhan University, Chaibasa

7

Memorandum of Understanding



Between

**KOLHAN UNIVERSITY,
CHAIBASA, WEST SINGHBHUM, JHARKHAND 833202, INDIA**

AND

**SAMPURNANAND SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA
VARANASI (U. P.) - 221002, INDIA**

Memorandum of Understanding



Between

**KOLHAN UNIVERSITY, CHAIBASA,
WEST SINGHBHUM, JHARKHAND 833202, INDIA**

AND

SAMPURNANAND SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA,

VARANASI (U. P.) – 221002, INDIA

KOLHAN UNIVERSITY and **SAMPURNANAND SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA** wishing to enhance relations between the two organizations and to develop academic and cultural interchange in the areas of education, research, entrepreneurship, innovation and other initiatives like joint project, agree to cooperate and work together toward the development of Sanskrit Studies and Cultural relations in both the state.

The areas of cooperation will include any program offered at either University that is felt to be desirable and feasible for the development and strengthening of cooperative relationships between the these institutions. However, any specific program shall be subject to mutual consent, availability of funds, and approval of each institution. Such programs may include:

1. Student exchange program
2. Collaborative Research projects
3. Development of research/academic activities in key areas
4. Initiating activities to run innovative interdisciplinary courses
5. Events collaboration to accelerate entrepreneurship and innovation
6. Joint Incubation Program
7. Conducting workshop and training to students and faculty

For running above all the activities respective university will allocate funds towards the expenditure to their own university.

For any further activities, the terms of such mutual assistance and cooperation shall be discussed and agreed upon in writing by appropriate responsible officers of both parties prior to the initiation of any particular program or activity. Project specific agreement can be negotiated separately. This Agreement does not impose any financial liability on the parties. Each party would bear its own expenses. The MOU would be valid for a period of 3 years and can be terminated by either party without assigning any reason by giving one month's notice. After evaluating the three (3) years' outcome, it may be extended for two (2) more years.


Arbitration :-

In case of any dispute between parties in relation to the said MoU arbitration, may be resolved in the office of Vice-Chancellor, Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi and Vice-Chancellor, Kolhan University, Chaibasa.


22/11/20

VICE CHANCELLOR
KOLHAN UNIVERSITY,
CHAIBASA, WEST SINGHBHUM,
JHARKHAND 833202, INDIA

Date: _____


22/11/20

VICE CHANCELLOR
SAMPURNANAND SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA
VARANASI (U. P.),
U. P. - 221002, INDIA

Date: _____





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 531520

**Memorandum of Understanding Between
Indira Gandhi National for Art**

And

Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi

(Designated by the Mission as Manuscript Conservation Centre)

Name of the Project: Commissioning tasks pertaining to Preservation and Conservation of Manuscripts for National Mission for Manuscripts.

This Memorandum of Understanding (MOU) is made on the First day of April in the year 2022 between the Indira Gandhi National Centre for the Arts, 3rd Floor Janpath Building, Near Western Court, New Delhi – 110001 here after referred to as First Party IGCA, which expression, unless repugnant to the context, shall include its successors, agents and assignees of the first part and M/S Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi which expression, unless repugnant to the context, shall include its successors, agents and assignees of the other part hereinafter referred to as S.S.V.V. MCC, whereby the IGCA and S.S.V.V. MCC will collaborate on the projects on Conservation of Manuscripts written on various materials (Organic, Inorganic and Composite Materials such as Paper, Cloth, Palm leaves, Birch bark, Sanchipat, Papyrus, Parchment, Leather, Vellum, Metal, Ivory, etc.) and related documents including Preventive and Remedial or Curative Conservation, Training, Workshop and Awareness Programmes, on Conservation in institutions and private collections.

Scope of work

The responsibilities of S.S.V.V. MCC are preservation and conservation of manuscripts related activities such as:-

- Creating a conservation nucleus in their station of Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi.
- Preventive care and Remedial conservation of manuscripts (institutional as well as private collections and at such places where manuscripts are located) in the surrounding areas, giving preference to their own collection.

- Any other responsibility to be taken up through mutual understanding between NMM and the respective MCC and with other MCCs of the state.
- The output of MCCs shall be as follows:
 - The MCCs situated in plain areas should conserve at least 500 folios through remedial (curative) conservation along with 5000 folios through preventive conservation in a month. Yearly output of MCCs situated in plain areas should not be less than 6000 folios through remedial (curative) conservation and 60000 folios through preventive conservation with 1:10 ratio.
 - The MCCs situated in Hill areas should conserve at least 250 folios through remedial (curative) conservation along with 2500 folios through preventive conservation in a month. Yearly output of MCCs situated in Hill areas should not be less than 3000 folios through remedial (curative) conservation and 30000 folios through preventive conservation with 1:10 ratio.
 - The MCC can organize the Preventive and Remedial or Curative Conservation workshop for which no separate MoU is required to be signed.
 - Additional staff may be engaged with prior permission of the Director, NMM according to the workload on the MCC but within the maximum limit of the annual grant.

Duration:

The duration of the project is 2 (Year) years commencing from 01-04-22 up to 31.03.2024 However, IGNCAs reserves the right to extend or discontinue this MOU and MCC status on the same or modified terms and conditions. The monthly report of the project will be submitted to the Director NMM at the end of every month in electronic format or preferably in print format.

Human Resources & Remunerations:

Prof. Ram Kishore Tripathi will be the Project Coordinator on Conservation. There will be one conservation team consisting of the following:

1. **Project Coordinator (MCC):** No new appointment will be made for the Project Coordinator (MCC) but an existing permanent officer / Head of the Department /

officer nominated by the Institution will be made in-charge of the responsibility. The Project Coordinator will be solely responsible for the work undertaken by the MCC. IGNC A will not deal directly with personnel assigned for such work as survey, documentation, cataloguing, etc. In the event of relinquishing charges by the Project Coordinator, a new appointment will be made for the same in consultation with the IGNC A. Honorarium to Project Coordinator shall not exceed ₹ 7,000/- per month.

2. **Sr. Conservator (One):** Senior Conservator with educational Qualification of Master degree in Art Conservation / Master degree in Fine arts / Master degree in chemistry/ one year PG Diploma in Conservation with experience of handling of manuscripts. Training in the Conservation of manuscripts and art objects from a reputed institution of National level (NRLC, IGNC A, National Museum, INTACH, National Mission for Manuscripts, National Archive) with a period not less than six months along with two years' experience of conservation of manuscripts in a museum or any reputed institution can be appointed with monthly remuneration of ₹ 25,000/- per month.
3. **Conservator (Two):** Conservator with educational qualification Graduation with Science / Graduation with Fine Arts or relevant subject to conservation, Training in the Conservation of manuscripts/art objects from a reputed institution of National level with a period not less than three months along with one years' experience of conservation of manuscripts in a museum or any reputed institution can be appointed with monthly remuneration of ₹ 20,000/- per month..

Finance:

IGNCA shall pay up to ₹ 12, 00,000/- (Rupees Twelve lakhs only) during the financial year. A separate Bank Account, preferably in Canara Bank branch, to be styled as IGNC A – Project Coordinator S.S.V.V. MCC to be opened and operated jointly by two signatory's vis-à-vis Project Coordinator and any one of the signatories as authorized by the Head of the Institute or as a separate head in the same institution to be operated as per the MCC's requirement.

The project coordinator shall report immediately to the IGNC A, in case he/she or his/her institution decides to close the MCC or for any other reason the work of the MCC is stopped at his/her institution, failing which the IGNC A shall charge interest at a rate of 10% p.a. on the un-utilized balance amount pending with the MCC.

The Project Coordinator shall be responsible for the control of expenditure against the funds needed by MCC.

Expenditures of the MCC will cover establishment expenses (New MCCs only), as well as Remunerations & Honorariums of all staff-members, Conservation Materials, Office Maintenance Expenses, Photography, Stationeries, Printing / Xerox of documents, Phone and Internet, T.A. and D.A. of staff-members etc.

1. For setting up conservation laboratory where such infrastructure is not available (one-time expenditure) applicable in the case of new MCC.
2. The newly established MCC can only utilize an amount of maximum ₹ 2, 50,000/- (Two Lakh fifty thousand only) towards establishment of laboratory and purchasing of chemical, conservation equipments and materials, Camera, connection of Telephone and Internet etc. against which no output will be claimed.
3. The initial grant to the new MCC shall ₹ 4, 00,000/- but the total amount of grant for the year shall be remain unchanged i.e. Rs. 12 lakh p.a. only.
4. The MCC can spend ₹ 15,000/- (fifteen Thousand only) for the Awareness Programme on Conservation of manuscripts and maximum two such Awareness Programme can be conducted in each year.
5. Target of the conservation team will be regulated as under:

Hilly Area

Hilly Areas include the state of Uttaranchal, Ladakh, Jammu, Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura.

Remedial / Curative Conservation	-	250 folios (in a month with one team)
Preventive conservation	-	2500 folios (i.e 1; 10 ratio)

Plain Area

Remedial / Curative Conservation	-	500 folios (in a month with one team)
Preventive conservation	-	5000 folios (i.e 1; 10 ratio)

The proposed target for preventive conservation is 30,000 and 60,000 folios and remedial conservation are 3000 and 6000 folios per year (i.e. 1; 10 ratio) is included in fund of

Rs. 12, 00,000 / (Twelve lakh) per year.

Regarding MCC staff for training etc. The quantum of work may be divided by 30 and the work for the number of days of participation in the training may be regulated accordingly.

For example: One conservator takes part in a workshop for 10 days:

Work for one month = 500+5000/ one team (3 person) in month

Work for one day, for a single person= (7+65)/ 1Person

Work for 20 days = (112+1040) = in 16 days

In case remedial conservation is done for 112 folios and Preventive Conservation is done for 1040 folios, the conservator can be paid full remuneration.

Payment Procedure:

The payment will be disbursed in three installments to the concerned MCC:

1. The first installment of Rs. 4 lakh (Rupees Four lakhs only) will be released on signing of the MoU.
2. Second installment of Rs. 4 lakhs (Rupees four lakhs only) will be released on furnishing of Utilization Certificate in form GFR-19A Statement of Account, Copy of vouchers for the total expenditure incurred against the first installment released.
3. Final installment of Rs. 4 lakhs (Rupees four lakhs only) will be released on furnishing of Utilization Certificate in form GFR-19A Statement of Account, Copy of vouchers for the total expenditure incurred against the second installment released.
4. The payment of remunerations, honorariums, and other expenditure shall be made through digital mode only.
5. The deduction of tax at source, depositing the tax with the authorities, collection of PAN card details of remitter and beneficiary and compliance of all prevailing government norms shall be the responsibility of MCC.
6. The MCC is required to submit the Audited Report alongwith the Certificate of CA at the end of each financial year.

7. In case of any other specific work assigned to MCC, the same financial norms will be followed.

Reporting and Monitoring System:

Comprehensive monthly report in electronic form or in print form as per the prescribed performs. The report will include such items as details on preventive and remedial conservation of manuscripts in institutions and private collections, as well as on training and awareness campaigns/workshops conducted in the area. In addition a Monthly Report indicating quantum of work done along with certification addressed to IGNCA from the concerned institution where the conservation work has been carried must be sent.

IGNCA will have to be given information in advance for organizing Awareness Program by the MCC and a report thereof will be submitted by the MCC.

Terms of Contract:

- i) The output of the project described in the agreement, together with the materials used or unused, purchased by S.S.V.V. MCC through utilizing the IGNCA fund is to be submitted by Project Coordinator to the IGNCA.
- ii) The non-recurring items shall be entered in the project stock register. IGNCA will share copyright over the materials and will be fully entitled to use the same.
- iii) IGNCA will have the right to foreclose the project at any time after recording the reasons. If, however, the project is foreclosed by S.S.V.V. MCC, Project Coordinator or the Head of the Institution for whatever reason, which in the opinion of IGNCA is not justified, the amount of pending advance with interest along with the project assets will be recoverable from S.S.V.V. MCC, Project Coordinator and/or the Head of the Institution. The decision of IGNCA in this matter shall be final and binding.
- iv) At the end of the financial year the MCC will furnish Annual Progress Report complete in all respects along with the Annual Audit Report.
- v) The MOU shall not be altered, varied or modified, nor any of its provision waived otherwise than by writing signed by both the parties hereto.

- vi) The MOU will be subject to review at the time of disbursement of the second installment and the MCC will operate a separate account/head for the purpose of IGNCA.
- vii) The project would be subject to assessment and review periodically. As regards the money receipts and payments, the same will be governed by General Financial Rules of the Central Government.
- viii) Separate guidelines issued by the IGNCA will form part of this MOU.
- ix) This MOU, its existence and all information exchanged between the parties under this MOU shall not be disclosed to any person by the MCC. The MCC shall hold in strictest confidence and shall not use or disclose to any third party, and shall take all necessary precautions to secure any confidential information of the other party.
- x) Except as specifically set forth herein, the rights and obligations hereunder cannot be assigned by MCC to any other party without the prior written consent of IGNCA.
- xi) The MCC will not only to conserve the manuscripts in the own possession but it will be also responsible for during the conservation of manuscripts available in nearby institutions or institution suggested by the IGNCA. In case manuscripts to be conserved in other institution are not documented and digitized, it will be the responsibility of MCC to get them documented and request IGNCA to digitize the same.
- xii) One copy of the Digitized Manuscripts shall be given to institution and one copy shall be kept by IGNCA for research & academic purposes.
- xiii) **The work report in the online format prescribed by IGNCA must be regularly sent by the MCC to the IGNCA irrespective of the work done assigning the reasons. In case the online report is not received the IGNCA shall not release the grant.**
- xiv) **ARBITRATION:**
Any claim, dispute or difference relating to or arising out of this MoU shall be referred to the arbitration, of a sole arbitrator. The arbitration shall be subject to the Arbitration and Conciliation Act, 1996 as may be amended from time to time. The Delhi International Arbitration Centre will appoint the Sole Arbitrator and will conduct the Arbitration accordance with its rules for the

conduct of Arbitrator proceedings then in force and applicable to the proceeding. The seat and venue of arbitration shall be New Delhi. The proceedings shall be undertaken in English. The arbitration award shall be final and binding on the parties

xv) DISPUTE RESOLUTION

In case of dispute in relation of this MoU or with respect to the further related contracts all disputes are to be resolved in the Courts within the Jurisdiction of Delhi State.
Force.

In WITNESS WHEREOF, THE IGNC A AND THE S.S.V.V. MCC have executed this MOU on the day, month and the year mentioned above.

Signed by Project Coordinator

[Handwritten Signature]
5/7/22

Signed by Librarian

[Handwritten Signature]
5-7-22

Signed by Registrar

[Handwritten Signature]
05.07.22
For and on behalf of

Signed by Head Institution

[Handwritten Signature]
05/07/2022

Indira Gandhi National Center for Aat

WITNESS

1. [Handwritten Signature]
5/7/22

2. [Handwritten Signature]
5/7/22

WITNESS:

1.

2.

संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानम्

SAMSKRIT PROMOTION FOUNDATION

Vedabhavanam, 11204/5, Second Floor, Gaushala Marg, Doriwalan, Delhi-110006
Ph.: (011) 23632323, 35575722, Website : www.sanskritpromotion.in Email : info@sanskritpromotion.in

21-July-2022

Prof. Hare Ram Tripathy

The Vice Chancellor

Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya

Varanasi

Sub: Extension of the MoU regarding

Ref: MoU between Samskrit Promotion Foundation and SSVV for the Saraswati Bhavan Library (SBL), for Conservation of Manuscripts project, dated 28 April 2021

Respected Sir,

We would like to bring to your kind notice that the Infosys Foundation supported Project on "Conservation & Preservation of Manuscripts" at SBL library is progressing quite well. The period of MoU is getting completed by July 27th, 2022.

Please find the broad details of the utilization of 2nd instalment, as of 30 June 2022.


1. The 2 nd instalment received in March 2022	= Rs. 30,00,000/-
2. Salary paid from March 2022 to June 2022	= Rs 957617 /-
3. Cost of materials procured & other expenses	= Rs. 358647 /-
4. Total amount utilized	= Rs. 1316264 /-
5. Balance amount unspent as of June 2022	= Rs. 1683736 /-

So with the balance amount the project is expected to continue for next 5 months. Hence we request you to extend the MoU for another 6 months or one year.

We take this opportunity to thank you for all your support and guidance. We look forward to be of service to the university in the cause of protecting the manuscript wealth.

Kind regards

Sincerely,

 21/7/2022

Lakshminarasimhan
Executive Officer



Amendment to Clause 15, of the MoU between Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya & Samskrit Promotion Foundation dated 13-April-2022.

(Following line is added to the Clause 15 of the MoU)

15. Based on the review of the project status, the period of the MoU is further extended for a period of one year up to 27-July-2023

सुरेश प्रियंका
Vice-Chancellor 26/07/2022
Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya,
Jagatgari, Chaukaghat, Varanasi
UP-221001

@
26.07.22

Date: 26/July/2022

Place: Varanasi

Witness 1:

श्री. लक्ष्मीनारायण शर्मा
Director - Academics
SAMSKRIT PROMOTION FOUNDATION
Registered Office : L1/7, Hauz Khar
Enclave, New Delhi 110016

and
Head Quarter address : 11204/5,
Gaushala Marg, Daryavalan, Delhi 110006

श्री. लक्ष्मीनारायण शर्मा
Director - Academics
संस्कृत-संघर्ष-प्रतिष्ठानम्
SAMSKRIT PROMOTION FOUNDATION
L1/7, Hauz Khar, 110016, 2nd Floor
Gaushala Marg, Daryavalan, Delhi-110006
Phone: 011-23450123

Witness 2:

श्री. लक्ष्मीनारायण शर्मा
Lakshminarasimhan

SSU, SSSU sign MoU

PIONEER NEWS SERVICE ■ VARANASI

The Sampurnanand Sanskrit University (SSU) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Shree Somnath Sanskrit University (SSSU), Veraval, Gujrat on the educational and cultural exchange for five years.

At a function held at Shree Somnath Sanskrit University (SSSU), Veraval, Gujrat on Saturday, Dr Raja Pathak, as representative of the V-C of SSU Prof Anand Kumar Tyagi signed on the MoU, while the Education Minister in Gujarat Government Prafull Bhai Panseria, Mayor of Veraval city Piyush Bhai Fofandi, MP of Somnath Rajesh Bhai Chudasama, V-C of SSSU Prof Lalit Bhai Patel and varsity registrar Dasharath Jadhav were present on the occasion. The MoU was the result of the discussion held between the V-C of SSU Prof Tyagi and the V-C of SSSU Prof Patel on July 11 in the SSU in Varanasi. Under the MoU, both universities will work on the basic facilities of teachers and students, exchange of educational materials, exchange of culture and



An MoU signed between SSU, Varanasi and SSSU, Veraval, Gujarat on educational and cultural exchange.

study on the subjects of Sanskrit, History, Archaeology, Social Science, Tourist and Manuscript as per their educational facilities. The exchange of researchers, academic exchange in the field of Indian Knowledge System and exchange of library facilities will also be made under the MoU. Besides, both universities will also work together on some more activities such as the workshops will be held for the teachers as well as students, events will be held to enhance

vocational and innovative skill, research in important fields will be made, activities in some subjects will be started, cooperative research projects, etc, the V-C of SSU Prof Tyagi informed. The job-oriented courses will be run to make the students self-reliant and the seminars, etc will be held on refresher course while training workshops will be held on various subjects, the V-C informed, adding that the MoU will be for five years initially and it could be extended.



शास्त्रों के विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाएगी

डा. कीर्ति कुमार अहुजा, फिल्म अभिनेता

भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, कोरियोग्राफर, पटकथा विशेषज्ञ एवं विभिन्न आयामों के मर्मज्ञ तथा प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गोविंदा के बड़े भाई डॉ. कीर्ति कुमार अहुजा का विश्व के संस्कृति एवं संस्कृति की हृदय एवं राजधानी काशी में स्थित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में विशेष आमंत्रण पर आज कुलपति कार्यालय में न्याय शास्त्र के वैश्वीक विद्वान एवं कुलपति प्रो. हरeram त्रिपाठी जी से नई शिक्षा निति के आलोक में रोजगारपरक पाठ्यक्रम (फिल्म से जुड़े विभिन्न आयाम) पर वार्ता हुई।

फिल्म अभिनेता, निर्देशक डॉ. कीर्ति कुमार अहुजा ने विश्वविद्यालय परिसर की भूमि के मिट्टी को माथे पर लगाकर कुलपति प्रो. हरeram त्रिपाठी के हर्षित भाव से स्वागत से अभिभूत होकर कहा कि काशी के साहित्य-कला एवं संस्कृति का लागू पूर्वचल के विद्यार्थियों एवं युवाओं एक पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हो इसके लिये यहां के कुलपति प्रो. त्रिपाठी जी से एक त्रैमासिक पाठ्यक्रम संचालित करने की योजना पर आज विचार-विमर्श हुआ। देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा, सुरक्षा-संरक्षा से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय एवं सूचना मंत्रालय के प्रयास से ही यहाँ पर विद्यार्थियों के हित में रोजगारपरक शिक्षा को संचालित करने का पहल है, इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिये चल-चित्र के विभिन्न आयामों जैसे निर्देशन, अभिनय, संगीत, नृत्य आदि सभी का ज्ञान दिया जायेगा। यह परिसर देववाणी गापा संस्कृत से गुक्त है इसलिये यहाँ कला

और साहित्य की बट वृक्ष की रक्षा यहाँ के विद्यार्थियों को नई शिक्षा निति के अन्तर्गत रोजगारपरक शिक्षा का लाभ देना ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य इच्छुक विद्यार्थियों एवं नाकी गालाकारों को प्राप्त होगा, इससे उन्हें मुंबई या अन्य जगह पर भटकना या पलायन नहीं करना पड़ेगा।

कुलपति प्रो. हरeram त्रिपाठी ने फिल्म अभिनेता एवं निर्देशक डॉ. कीर्ति कुमार अहुजा जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुये कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा निति के अन्तर्गत भारतीय ज्ञान परम्परा को आगे बढ़ाने तथा विभिन्न विद्यार्थियों को शास्त्र के साथ साथ रोजगारपरक विभिन्न आयाम तैयार करने के उद्देश्य से आज फिल्म जगत के नायक या वास्तव में घरातल पर कार्य करने वाले नायक श्री अहुजा जी यहाँ पर विश्वविद्यालय से जुड़कर एक करार के माध्यम से विद्यार्थियों के लिये पाठ्यक्रम संचालित करना चाहते हैं।

कुलपति प्रो. त्रिपाठी ने कहा कि पूर्वचल को उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के रूप में जाना जाता है यहां के विद्यार्थी यदि अभिनय-कला, पटकथा लेखन, म्यूजिक एवं अन्य जुड़े आयाम को सीखने के लिये आर्थिक रूप से सक्षम बच्चे मुंबई, पुणे या दिल्ली आदि में जाकर अध्यायन कर पाते हैं किन्तु अति पिछड़े इस क्षेत्र के बच्चे आर्थिक परेशानी या संस्कृत के विद्यार्थी उन्हें सहयोग नहीं मिल पाता उनको ध्यान में रखकर ही यहां ऐसे रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित करने पर विचार गंथन हुआ। हम दोनों लोगों के बीच शीघ्र ही विधिक रूप से एक करार या अनुबंध भी किया जायेगा।



शिक्षा निति के आलोक में रोजगारपरक शिक्षा संस्तर के विद्यार्थियों को कला साहित्य का भी पाठ्यक्रम पढाया जायेगा - कुलपति प्रो. हरeram त्रिपाठी



बनारस स्टेशन पर जल्द खुलेगा जन औषधि केन्द्र

भारत सरकार के निर्देश पर देश भरगत 100 से अधिक औषधि केन्द्रों पर आगे बढ़ने वाले 'जन औषधि' के अंग के रूप में औषधि केन्द्रों के लिए स्टेशन पर विचारित एक छोटी खोलने का निर्णय लिया गया है। पूर्वोक्त निर्देशों के अनुसार ये खोलने के पूर्वोक्त अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पूर्वोक्त देश के गोरखपुर, धनगढ़, राखनरूप जैसा एक कोशीपुर स्टेशन पर प्रथमवर्ती भारतीय जन औषधि केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित किया गया है। इन औषधि केन्द्रों पर देश यात्रियों को बहुत लाभ प्राप्त कर आश्चर्यक रूप से उपलब्ध हो सकेगी। निर्देशों के लिए उन्हें स्टेशन के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।



सम्मानित होते नेपालके प्रोफेसर माधव अधिकारी ।

पांडुलिपियों के अनुवाद, शोध पर संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच बनी सहमति

सम्पूर्णतः संस्कृत विश्वविद्यालय एवं नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमांडू (नेपाल) के बीच पांडुलिपियों के अनुवाद एवं शोध के लिए एक करार (एनएनए) करने के संघर्ष में इतिहास को पूर्वोक्त में दोनों देशों के अग्रणी एवं एक दूसरे विश्वविद्यालय के जकार शोध, विभिन्न विषयों पर कार्यवाही आदि में सहभाग करने तथा अग्रणीय विद्वान् संस्कृत के साथ अध्ययन को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने सहमत बनी।

नेपाल के 10 हजार पाण्डुलिपियों पर शोध, अनुवाद और प्रकाशन होगा

काठमांडू प्रोफेसर होम विमले ने बताया कि दोनों देशों के संस्कृत विश्वविद्यालयों के अनुबंध से पहले 10 हजार दुर्लभ पाण्डुलिपियों के अनुवाद और शोध (समीक्षात्मक संवाद एवं अनुवाद) कार्यों के

निर्णय साधना की जानकारी प्राप्त होगी। अनुबंध में देश पाण्डुलिपियों के अनुवाद और शोध का प्रकाशन भी इस विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। प्रोफेसर विमले ने बताया कि नेपाल और भारत को प्रत्येक का एक-दोनों मित्र देशों की संस्कृत विश्वविद्यालयों के बीच आदान-प्रदान (अध्ययन तथा शोध) से भारतीय संस्कृति एवं नेपाल को संस्कृति का वृद्ध आदान प्रदान होगा। इससे दोनों देशों के संबंध में अभिवृद्धि होगी।

नेपाल में आनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

काठमांडू प्रोफेसर होम विमले ने बताया कि इस संघर्ष में आनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना से गयी है इसके केन्द्र को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से नेपाल और अमेरिका में केन्द्र स्थापित होगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में देश विदेश

जगत, संस्कृत भाषा विभाग, अर्थिक, कर्मकांड, ज्योतिष, साहित्य विभाग, जलकरण, दर्शन, वेदान्त, योग, वेद के पाठ्यक्रम संघटित होंगे। इसी पर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय से भी करार होगा है।

भारतीय संस्कृति और नेपाली संस्कृति का आदान-प्रदान होगा

करीब 100 वर्षों के बाद नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर माधव अधिकारी ने बताया कि इस करार से संस्कृत भाषा का संवर्धन एवं विकास होगा। साथ ही भारतीय संस्कृति एवं नेपाली संस्कृति का आदान-प्रदान होगा। नेपाल के विश्वविद्यालय के संघर्ष दोहोरे सम्बन्ध में काठमांडू प्रोफेसर विमले और कोशी मुख्यालय आर्चिव आर्चिव विमले ने बताया कि नेपाल के प्रथमवर्ती अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन पर प्रोफेसर रंभ अरिवाल, डॉक्टर रघुनाथ नेपाल आदि उपस्थित रहे।

31/04-06-2023

संस्कृत विवि व नेपाल के बीच होगा शैक्षणिक करार

समापनशी (एसएनसी)। सम्पूर्णतः संस्कृत विश्वविद्यालय एवं नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच पाण्डुलिपियों के अनुवाद एवं शोध के लिए एक करार के लिए बैठक हुई। इस करार (अनुबंध में) दोनों देशों के अग्रणी एवं एक दूसरे विश्वविद्यालय के जकार शोध, विभिन्न विषयों पर कार्यवाही आदि में सहभाग करेंगे। अग्रणीय विद्वान् संस्कृत के साथ अध्ययन को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने सहमत बनी।

विज्ञान, व्यवसाय, दर्शन, वेदान्त, योग, वेद के पाठ्यक्रम संघटित होगा। नेपाल के दोहोरे में कुलपति यती



नेपाल व अमेरिका में आनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना : कुलपति यती

पाण्डुलिपियों के अनुवाद और शोध (समीक्षात्मक संवाद एवं अनुवाद) से शोध के निर्णय साधना की जानकारी प्राप्त होगी। कुलपति प्रो. होम विमले ने बताया कि पहले आनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हो गयी है इसके केन्द्र को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से नेपाल और अमेरिका में केन्द्र स्थापित होगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश जगत, संस्कृत भाषा विभाग, अर्थिक, कर्मकांड, ज्योतिष, जलकरण, दर्शन, वेदान्त, योग, वेद के पाठ्यक्रम संघटित होंगे। इसी पर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय से भी करार होगा है।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर माधव अधिकारी ने बताया कि इस करार से संस्कृत भाषा का संवर्धन एवं विकास होगा। साथ ही भारतीय संस्कृति एवं नेपाली संस्कृति का आदान-प्रदान होगा। नेपाल के विश्वविद्यालय के संघर्ष दोहोरे सम्बन्ध में काठमांडू प्रोफेसर विमले और कोशी मुख्यालय आर्चिव आर्चिव विमले ने बताया कि नेपाल के प्रथमवर्ती अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन पर प्रोफेसर रंभ अरिवाल, डॉक्टर रघुनाथ नेपाल आदि उपस्थित रहे।

संविधि व नेपाल विवि साथ कराएंगे संस्कृत में शोध



सम्पूर्णतः संस्कृत विश्वविद्यालय से नेपालों के लिए रजिस्ट्रार को हुई बैठक के बाद कुलपति एवं समापन करते नेपाल विवि के प्रतिनिधि।

समापनशी, बरिष्ठ संवाददाता। सम्पूर्णतः संस्कृत विश्वविद्यालय और नेपाल (नेपाल) विगत नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मिलकर शोध और संस्कृत अनुवाद का कार्य करेंगे। रजिस्ट्रार को दोनों विश्वविद्यालयों के बीच सम्बन्धों के संबंध बैठक हुई।

- दोनों विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने की बैठक
- पाण्डुलिपि का अनुवाद, शोध व प्रकाशन भी होगा

कुलपति प्रो. होम विमले ने बताया कि दोनों देशों के संस्कृत विश्वविद्यालयों के बीच आदान-प्रदान (अध्ययन तथा शोध) से भारतीय संस्कृति एवं नेपाल को संस्कृति का वृद्ध आदान प्रदान होगा। इससे दोनों देशों के संबंध में अभिवृद्धि होगी।

अनुबंध में दोनों विश्वविद्यालयों के अनुवाद और शोध का प्रकाशन भी किया जाएगा। बैठक में नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. माधव अधिकारी ने बताया कि नेपाल विवि के 500 से अधिक में भी प्रोफेसरों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। इस अवसर पर प्रो रंभ अरिवाल, डॉ. रघुनाथ नेपाल

नेपाल में भी खुलेगा संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र

10 हजार दुर्लभ पांडुलिपियों पर शोध व अनुवाद के लिए होगा करार

माई सिटी रिपोर्ट



कारार के दौरान कुलपति प्रो. हरeram त्रिपाठी व प्रो. माधव अधिकारी। संवाद

वाराणसी। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र की दूसरी शाखा अमेरिका के बाद नेपाल में खोली जाएगी। इसके साथ ही नेपाल की दुर्लभ 10 पांडुलिपियों पर शोध, अनुवाद और प्रकाशन के लिए जल्द ही नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दांग के बीच शैक्षणिक करार (एमओयू) होगा।

शनिवार को नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. माधव अधिकारी ने कुलपति प्रो. हरeram त्रिपाठी से एमओयू के लिए मुलाकात की। अनुबंध से दोनों देशों के अध्यापक और छात्र एक दूसरे के विश्वविद्यालय में जाकर शोध और कार्यशाला में हिस्सा ले सकेंगे। कुलपति प्रो. हरeram त्रिपाठी ने बताया कि अनुबंध में दुर्लभ पांडुलिपि के अनुवाद और शोध का प्रकाशन भी किया जाएगा। प्रो.

नेपाल विधि के दीक्षांत में मुख्य अतिथि हंगे कुलपति

नेपाल विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में कुलपति प्रो. हरeram त्रिपाठी मुख्य अतिथि हंगे। कुलसचिव प्रो. माधव अधिकारी ने बताया कि इस करार से संस्कृत भाषा का संवर्धन और भारतीय, नेपाली संस्कृति का आदान प्रदान होगा। दीक्षांत समारोह को अण्डाभूषण नेपाल के प्रधानमंत्री करेंगे। इस दौरान प्रो रंभा अरिवाल और डॉ. रघुनाथ नेपाल उपस्थित रहे।

त्रिपाठी ने बताया कि अमेरिका के साथ ही नेपाल में भी ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होगी। इसके तहत संस्कृत भाषा शिक्षण, अर्थक, कर्मकांड, ज्योतिष, वेदांत, योग, वेद के पाठ्यक्रम वास्तु विज्ञान, व्याकरण, दर्शन,

शैक्षणिक करार के लिए हुई बैठक, अमेरिका के बाद नेपाल होगा दूसरा केंद्र

वेदांत, योग, वेद के पाठ्यक्रम संवर्धित हंगे।

मुख्य सचिव आज संविधि की प्रगति देखेंगे

वाराणसी। मुख्य सचिव दुर्गाकर मिश्र शनिवार को सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर का दौरा कर निरीक्षण करेंगे। कुलसचिव रमेश कुमार ने शनिवार को बताया कि शनिवार को प्रति सुबह 8 बजे से खुलेगा। इस समय सभी अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिकियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं।

पांडुलिपियों के संरक्षण को तीन दिवसीय कार्यशाला करार से

वाराणसी। उद्योग पाण्डुलिपि शिक्षण केंद्र का चौथे श्रेणी कला केंद्र (संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित) पर सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रो. माधव अधिकारी ने 5 से 7 जून तक प्रारंभ 10-30 वर्ष से बड़े छात्रों में पाण्डुलिपियों का संरक्षण एवं संवर्धन शिक्षण कार्यशाला का आरंभ किया है। शिक्षण में मुख्य अतिथि एवं मुख्य कर्ता उद्योग पाण्डुलिपि शिक्षण के निदेशक डॉ. निरंजन मिश्र हैं। अध्यक्ष प्रो. रमेश कुमार तथा सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रो. रघुनाथ त्रिपाठी भी उपस्थित हंगे।

काशी विद्यापीठ और सम्पूर्णानंद में नामित हुए कार्यपरिषद सदस्य

वाराणसी। महात्म गांधी काशी विद्यापीठ और सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में स्थानीय व अस्थायी के जिनो के विधाक्यों को नामित किया गया है। विधानमभा की ओर से जारी अधिमूचना के अनुसार सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय विधाक्य डॉ. अक्षयेश मिश्र, डॉ. नीलकंठ मिश्र, श्रीप्रकाश द्विवेदी, रमेश जायसवाल और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विधाक्य सीतल श्रीवास्तव, विधुवन शर्मा, डॉ. सुनील पटेल, सुरोत सिंह और जगन्नाथ सिंह को मंत्री कार्यपरिषद सदस्य नामित किया गया है। श्रुते

दोनों देशों के आचार्यगण मिल जुलकर संस्कृत के नवीन आयाम को आगे बढ़ाएंगे-कुलपति

स्वतंत्र चेतना

वाराणसी। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय व वाराणसी एवं नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दांग नेपाल के बीच पाण्डुलिपियों के अनुवाद एवं शोध के लिये एक करार एमओयू करने पर बैठक हुई। इस करार अनुबंध में दोनों देशों के अध्यापक एवं छात्र एक दूसरे विश्वविद्यालय में जाकर शोध एवं विभिन्न विषयों पर कार्यशाला आदि में सहभाग करेंगे। आचार्य गण मिल जुलकर संस्कृत के नये आयाम को आगे बढ़ाएंगे।



होगी। अनुबंध में रेयर पाण्डुलिपि के अनुवाद और शोध का प्रकाशन भी इस विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। कुलपति प्रो त्रिपाठी ने बताया कि नेपाल और भारत की प्रगाढता का एक सोपान सिद्ध होगा।

दोनों देशों के संस्कृत विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक आदान प्रदान अध्यापक छात्रों से भारतीय संस्कृति एवं नेपाल की संस्कृति का बृहद आदान प्रदान होगा इससे दोनों देशों के प्रगाढता में अभिवृद्धि होगी। कुलपति प्रो

टिकरी में बनेगा संस्कृत विद्यालय, जमीन मिली

वाराणसी। संस्कृत विद्यालय के विधान के लिए जगह पहिनात कर ली गई है। काशी विद्यापीठ ब्लॉक के टिकरी में दो एकड़ में विद्यालय और हॉस्टल का निर्माण होगा। यह जिले का पहला संस्कृत विद्यालय होगा। विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहां 6 से 12 तक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। संस्कृत को बढ़ावा देने और युवाओं को संस्कृत से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालय बनाने की घोषणा की थी। इसमें वाराणसी मंडल में दो विद्यालय बनाए जाने हैं। निरंजन विद्यालय निरंजन डॉ. गिरिश सिंह ने बताया कि शक्यता को निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव बना कर भेजा गया है। टिकरी में दो एकड़ में विद्यालय बनेगा। संवाद

कुलपति प्रो हरeram त्रिपाठी ने बताया कि अनुबंध से दोनों देशों के संस्कृत विश्वविद्यालयों के अनुबंध से जहां पर नेपाल स्थित 10 हजार दुर्लभ पाण्डुलिपियों के अनुवाद और शोध समीक्षात्मक संपादन एवं अनुवाद शास्त्रों के नवीन सम्पदा की जानकारी प्राप्त

मुख्य सचिव आज करेंगे सम्पूर्णानंद सं.विधि का निरीक्षण

वाराणसी। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को गति देने के लिए चल रहे कार्यक्रमों का निरीक्षण करने के लिए मुख्य सचिव उषा मिश्र तथा प्रदेश के मुख्य सचिव शरमन दुर्गा शंकर मिश्र 4 जून को वाराणसी पहुंच रहे हैं। जिसे देखते हुए कुलसचिव रमेश कुमार ने निर्देशित किया है कि विश्वविद्यालय प्रातः 8 बजे से खुलेगा। तथा विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय के सम्पन्न सचिव कार्यों को अनिवार्य अतिव्यव रहेंगे।

मुख्य सचिव करेंगे संस्कृत विधि का निरीक्षण

वाराणसी। संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को गति देने के लिए मुख्य सचिव उषा मिश्र तथा प्रदेश के मुख्य सचिव शरमन दुर्गा शंकर मिश्र 4 जून को वाराणसी पहुंच रहे हैं। जिसे देखते हुए कुलसचिव रमेश कुमार ने निर्देशित किया है कि विश्वविद्यालय प्रातः 8 बजे से खुलेगा। तथा विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय के सम्पन्न सचिव कार्यों को अनिवार्य अतिव्यव रहेंगे।



संपूर्णानंद में पांच के बाद से शुरू होगी कक्षाएं

वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आगस्ट महीने में पांच दिनों के बाद शुरू होगी। संस्था की कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ला की अध्यक्षता में 'वैद्यक' में विभागाध्यक्षों से कक्षाओं के संयोजन के लिए पांच दिनों तक कार्ययोजना तैयार की गई है। कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ला ने कहा कि आगस्ट महीने के संयोजन के लिए विभागाध्यक्षों से कार्ययोजना तैयार की गई है। आगस्ट महीने में संयोजन अभी निश्चित होगा।

यूपी और झारखंड करेंगे शिक्षा और संस्कृति का आदान-प्रदान

वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और कोल्हाण विश्वविद्यालय पाईबासा के बीच शैक्षणिक व सांस्कृतिक समझौता हुआ। दोनों विश्वविद्यालयों के बीच स्नातक स्तर पर सहयोग होगा। समझौते के अनुसार दोनों संस्थाएं शैक्षणिक सुविधाओं के अनुसार शिक्षक, छात्रों की मुलभूत सुविधाओं, शैक्षणिक सामग्री का आदान-प्रदान तथा संस्कृतियों पर कार्य करेंगी।

संस्थाओं को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ला एवं प्रो. गंगाधर पंडा के बीच एक औपचारिक हस्ताक्षर हुआ। कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ला ने बताया कि स्नातक स्तर पर दोनों विश्वविद्यालयों के बीच समझौता हुआ है। इसमें छात्रों की आदान-बदली, अनुसंधान योजना, स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्टर्स, कार्यशाला, विद्यार्थियों के रोजगार पाक पाठ्यक्रम के अनुसार सहयोग और सांस्कृतिक विनिमय किया जाएगा। दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा रिफ्रेश कोर्स, ट्रेनिंग, वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन होगा।

कोल्हाण और संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच स्नातक विद्यार्थी पर अपनी सहमति

आर्थिक व्यवस्था को मिलाकर तब करेंगी संस्थाएं। कुलपति प्रो. गंगाधर पंडा ने बताया कि दोनों संस्थाओं के बीच भागीदारी ज्ञान का विकास और विनिमय करेगी। किसी भी आर्थिक व्यवस्था को दोनों संस्थाएं मिलाकर तब करेंगी, वह समझौता प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए होगा है। संस्कृत विश्वविद्यालय का 230 सालों का इतिहास है और संस्कृत के सांस्कृतिक मूल्यों का लाभ झारखंड में प्राप्त होगा। संस्कृत, शैक्षणिक एवं भव्यता का संपूर्ण ज्ञान यहाँ से प्राप्त होगा। वहीं कोल्हाण विश्वविद्यालय को रक्षाभंग अनुसंधान जति एवं अनुसंधान जनशक्ति के विद्यार्थियों को सम्मिलित शिक्षा प्रदान करने के लिए को गई है। वहाँ पर प्राविधिक, कर्मिक, मेडिकल, प्रौद्योगिकी, प्रबंध शास्त्र आदि का अध्ययन अध्ययन किया जाता है। इस अवसर पर कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ला, प्रो. गंगाधर पंडा और अन्य अधिकारी शामिल हुए।

संस्कृत विश्वविद्यालय

खाली कक्षाओं का छात्रों का इंतजार

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शान्ता परमा हुआ था। केंद्रीय कार्यालय के सामने बरफ के पैके के पास कुछ छात्रों का इंतजार था। खाली कक्षाओं का इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय कार्यालय के बाहर वाले चर्क में कुछ छात्र बस में सवार होने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों का इंतजार था। केंद्रीय कार्यालय के बाहर वाले चर्क में कुछ छात्र बस में सवार होने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों का इंतजार था।



संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों में खाली कक्षाओं का इंतजार।

दिनांक 24-11-2020

संस्कृत व कोल्हाण विवि में शैक्षणिक करार

वाराणसी | वरिष्ठ संवाददाता। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और झारखंड के कोल्हाण विश्वविद्यालय, पाईबासा के बीच सहयोग को शैक्षणिक करार हुआ। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ला एवं कोल्हाण विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. गंगाधर पंडा ने तीन वर्षों के लिए समझौता पत्र पर दस्तखत किया। प्रो. पंडा संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययन कर चुके हैं। कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ला ने बताया कि दोनों विश्वविद्यालयों के बीच मुझक: छात्र विद्यार्थी पर समझौता हुआ है। इनमें विद्यार्थियों का आदान-प्रदान, अनुसंधान योजना (प्रोजेक्ट) में सहयोग, अतिथि विद्यार्थियों को शुरुआत, व्यावसायिक कौशल, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन है। के लिए परक पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों का सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी किया जायेगा। कुलपति प्रो. गंगाधर पंडा ने बताया कि आर्थिक व्यवस्था दोनों संस्थाएं मिलाकर तब करेंगी। इस मौके पर कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ला, प्रो. अमित कुमार शुक्ला, प्रो. वृजभूषण ओझा, शशींद्र मिश्र आदि उपस्थित थे।

संस्कृत विश्वविद्यालय में पांच दिनों तक मांगी गई कार्ययोजना संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन ने पांच दिनों के बाद अफलाइन रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है। कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ला ने विभागाध्यक्षों से प्रस्तावों के अनुसार कार्ययोजना बना पांच दिनों तक तैयारी का निर्देश दिया है। यदि अफलाइन कक्षाएं चलाने का निर्णय ले लेंगे।

शैक्षिक आदान-प्रदान के लिए समझौता

वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने शैक्षिक आदान-प्रदान के लिए संयोजन को कोल्हाण विश्वविद्यालय (पाईबासा-झारखंड) से समझौता किया। अनुबंध पर संस्कृत विवि के कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ला व कोल्हाण विवि के कुलपति प्रो. गंगाधर पंडा ने हस्ताक्षर किए। प्रथम चरण में यह समझौता तीन वर्षों के लिए किया गया है। समझौते के तहत अब विद्यार्थी एक-दूसरे विश्वविद्यालय को सम्मिलित करेंगे। इसके अलावा अनुसंधान, अतिथि विद्यार्थियों, व्यावसायिक व स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के साथ-साथ कार्यशालाओं के भी संयुक्त रूप से आयोजन होगा। इस मौके पर कुलपति प्रो. पंडा ने बताया कि समझौते से दोनों संस्थाओं के बीच भागीदारी ज्ञान का विकास और विनिमय होगा। किसी भी आर्थिक व्यवस्था को दोनों संस्थाएं तब करेंगी।

Handwritten signature

काशी के विद्वानों से संस्कृत पढ़ेंगे फ्रेंच विद्यार्थी

छोटा शैक्षणिक करार
फ्रांस दूतावास की दो सदस्य पहुंची संस्कृत विश्वविद्यालय



संविधि में शामिली दूतावास की दो सदस्यों ने किया जवाब

मध्यम से संस्कृत और फ्रेंच के समन्वय से भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं संस्कृत भाषा तथा भारतीय शास्त्रों का प्रसार फ्रांस में फैलेगा। कहा कि इस विश्वविद्यालय और फ्रांस के साथ गीघ्र ही शैक्षणिक आदान-प्रदान करार किया जाएगा।

अध्यक्ष कर रहे आचार्य केसी दुबे ने विश्वविद्यालय में फ्रेंच विभाग की स्थापना के इतिहास, उद्भव और विकास पर प्रकाश डालते हुये कहा कि फ्रांस के माध्यम से विश्विक रूप से शीघ्र ही दोनों देशों के शैक्षणिक संबंधों के गह और अहसान हो जायेंगे। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए शैक्षणिक आदान-प्रदान को अति आवश्यक यकते हुए छात्र कल्याण संकल्पामक्ष प्रो राम पूजन पाण्डेय ने संस्कृत शास्त्रों के फ्रेंच ट्रांसलेशन की बात कही। इससे हमारे छात्रों को रोजगार का और अवसर मिलेगा। इस दौरान कुलसचिव राजबहादुर, डॉ राजा पाठक के साथ अनुवाद अनिल कुमार चतुर्वेदी मौजूद रहे। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर रमेश प्रसाद ने किया।

धाराणसी। देवनागरी संस्कृत की पहचान बहुत जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में होने वाली है। सनातन काल से ही भारत की सभ्यता और संस्कृति की पहचान रही इस भाषा के बूढ़ रहस्यों को अब फ्रांस के लोग भी जान सकते। संस्कृत की खोजकला से फ्रांसवासियों को परिचित कराने का यह काम प्राचीन सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते की डोर को और भी मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच शैक्षणिक गठबंध होगा। जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गुल्बार्ग को काशी पहुंची फ्रांसिसी दूतावास की दो सदस्यों ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में चर्चित आचार्य प्रो केसी दुबे सहित अन्य प्रोफेसरों के साथ फ्रांस दूतावास की सदस्य फातिमा कर्मीसी एवं मैरिलिन लेडीन के साथ शैक्षणिक जोड़े की लेकर घंटों चर्चाएं हुईं। दूतावास की शिक्षा सम्बन्धी अधिकारी फातिमा ने कहा कि भारतीय सनातन

धर्म संस्कृति विश्व की अति प्राचीनतम संस्कृति है, यहां पर मानव और प्रकृति के प्रति आपसी समन्वय भारतीयता का एक अद्भुत स्वरूप है। फ्रेंच भाषा और संस्कृत दोनों के मिलने से यहां के विद्यार्थियों को शिक्षा और रोजगार के लिये सदैव अवसर मिलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि विस्तृत विचार के

संपूर्णानंद विवि व फ्रांस में होगा शैक्षणिक करार

धाराणसी (एसएनबी)। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में बुधवार को चर्चित आचार्य प्रो. केसी दुबे के अध्यक्षता में फ्रांस दूतावास के अधिकारी फातिमा कर्मीसी और मैरिलिन लेडीन के साथ शैक्षणिक जोड़े के लिये एक विचार मंथन किया गया। इस अवसर पर दोनों ही देशों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक आदान प्रदान से संबंधित फ्रांसिसी दूतावास की शिक्षा सम्बंधित अधिकारी फातिमा ने कहा कि भारतीय सनातन धर्म संस्कृति विश्व की अति प्राचीनतम संस्कृति है और यहां पर मानव और प्रकृति के प्रति आपसी समन्वय भारतीयता का एक अद्भुत स्वरूप है। फ्रेंच भाषा और संस्कृत दोनों के मिलने से यहां के विद्यार्थियों को शिक्षा और रोजगार के लिये सदैव अवसर मिलते रहेंगे। फ्रांस दूतावास की अधिकारी ने कहा कि इस विधि और फ्रांस के साथ शीघ्र ही शैक्षणिक आदान-प्रदान करार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि विस्तृत विचार के माध्यम

से संस्कृत और फ्रेंच के समन्वय से भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं संस्कृत भाषा तथा भारतीय शास्त्रों का प्रसार फ्रांस में फैलेगा। कार्यक्रम की



अध्यक्षता करते हुए आचार्य केसी दुबे ने विवि में फ्रेंच विभाग की स्थापना के इतिहास, उद्भव और विकास पर प्रकाश डालते हुये कहा कि फ्रांस के माध्यम से विश्विक रूप से शीघ्र ही दोनों देशों के शैक्षणिक संबंधों के गह और अहसान हो जायेंगे। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए शैक्षणिक आदान-प्रदान को अति आवश्यक बताते हुए छात्र कल्याण संकल्पामक्ष प्रो. राम पूजन पाण्डेय ने संस्कृत शास्त्रों के फ्रेंच

ट्रांसलेशन की बात कही, इससे हमारे छात्रों को रोजगार का और अवसर मिलेगा।

इस दौरान कार्यक्रम के आरंभ में संस्था के कुलसचिव राजबहादुर ने भारतीय भव्यता के साथ अतिथियों का स्वागत किया। कहा कि यह संस्था देश की अति प्राचीन संस्था है और यहां की संस्कृति सदैव अतिथियों को देव रूप में स्वीकार करती है और इस बैठक के माध्यम से भारत और फ्रांस के संबंधों में और प्रगाढ़ता आयेगी। बैठक में विवि के सम्पूर्ण इतिहास पर झलते हुये डॉ. राजा पाठक ने यहां का साम्पूर्ण परिचय कराया। बैठक का अहरम्भ वैदिक, पौराणिक, पाली मंगलाचरण एवं मंचस्थ अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की प्रीति पर माल्यार्पण किया गया। धन्यवाद ज्ञापन प्रो. रमेश प्रसाद ने किया। कार्यक्रम को अनिल कुमार चतुर्वेदी ने इंटरप्रेट किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने यहां की विश्व प्रसिद्ध पाण्डुलिपि ग्रन्थालय एवं ऐतिहासिक परिसर को देखकर अभिभूत हुईं।

नैक मूल्यांकन न कराने वाले कालेजों की मांगी सूची

जनरल सहायदास, बलरानी : उच्च शिक्षक संस्थानों का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी नैक से मूल्यांकन अनिवार्य है। फिर भी जनरल के ज्यादातर महाविद्यालय मूल्यांकन में हीलाहवासी कर रहे हैं। मूल्यांकन न होने पर उनका सरकारी अनुदान रोका जा सकता है।

उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक विरेंद्र प्रताप सिंह ने नैतिक लक्षण निर्धारित करते हुए ऐसे महाविद्यालयों की सूची क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से तैयार की है, ताकि उन पर सख्त कार्रवाई जा सके। संयुक्त निदेशक ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, उच्च शिक्षा अधिकारियों व महाविद्यालयों के प्राचार्यों से मूल्यांकन की प्रगति रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।

एक विवि व दो कालेजों की ग्रेडिंग समाप्त

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, अग्रसेन कन्या पीजी कालेज के साथ उच्च प्रत्यायन महाविद्यालय की नैक ग्रेडिंग को वैधता सम्पन्न हो गई है। विभिन्न विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों

ग्रेडिंग

- मूल्यांकन करने को लेकर जनरल उच्च शैक्षिक संस्थान उदासीन
- संयुक्त उच्च शिक्षा ने नैतिक लक्षण निर्धारित करने का दिना निर्देश

सात में चार कार्यशालाएं, फिर भी नतीजा शून्य

अजायबाने मिली कालेज मूल्यांकन करने के नाम पर चुपी खाती है, जबकि महत्वा गंधी कालेज विश्वविद्यालय नैक से मूल्यांकन करने के लिए खतरे की लताकार प्रेरित कर रहा है। सात में चार-चार कार्यशालाएं बुलाई जा रही हैं। इनके बावजूद इच्छा संवेदनशील परिणाम नहीं मिल रहा है।

को वैधता सम्पन्न हो गई है उनके नवीकरण करना होगा। नवीकरण के लिए यूपी कालेज नैक को अग्रसेनान सैल्फ स्टडी रिपोर्ट (एसएसआर) भेज चुका है। संस्कृत विश्वविद्यालय भी रिपोर्ट भेजने की तैयारी में जुटा है। वहीं अग्रसेन कन्या पीजी कालेज की रिपोर्ट खरिज हो चुकी है। अब नए विवे से भेजने की तैयारी चल रही है।

31/01/2021-21-21

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और फ्रांस के मध्य होगा शैक्षणिक करार

भारतीय सनातन धर्म एवं संस्कृति विषय की अति प्राचीनतम संस्कृति है। यहाँ पर मानव और

शैक्षणिक समन्वय के लिये आर्कोजित विचार संघन में फ्रांसीसी दूतावास की शिक्षा सम्बंधित अधिकारी सूची कागजिया ने कही। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा और संस्कृत दोनों के मिलने से यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा और रोजगार के लिये सदैव अवसर मिलते रहेंगे। संस्कृत और फ्रेंच के समन्वय से भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं संस्कृत भाषा तथा भारतीय शास्त्रों का प्रसार फ्रांस में फैलेगा। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय और फ्रेंच के मध्य शीघ्र ही शैक्षणिक आदान-प्रदान करार किया जाएगा। प्रोफेसर के सी दुबे ने कहा कि करार के माध्यम से विधिक रूप से शीघ्र ही दोनों देशों के शैक्षणिक संबंधों के राह और आसान हो

जायेंगे। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए शैक्षणिक आदान-प्रदान को अति आवश्यक बताते हुए उच्च कार्यालय संस्थाध्यक्ष प्रोफेसर राम पूजन पांडे ने संस्कृत शास्त्रों के ज्ञेय प्रसंगेन को बात कही। उन्होंने कहा कि इससे हमारे छात्रों को रोजगार का और अवसर मिलेगा। रजिस्ट्रार राजवहादुर ने कहा कि आज के वैश्व के माध्यम से भारत और फ्रांस के संबंधों में और प्रगाढ़ आयेगी। इस अवसर पर अधिकारीद्वय ने विश्वविद्यालय की विश्व प्रसिद्ध पाण्डुलिपि ग्रन्थालय एवं एतिहासिक परिसर को देखकर अभिभूत हुई। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर रमेश प्रसाद ने किया।



संस्कृति के प्रति आर्य समाज्य भारतीयता का एक अद्भुत स्वरूप है। ये काले गुल्कार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग लक्षण भेद में प्रोफेसर केसी दुबे के अध्यक्षता में फ्रांस दूतावास के अधिकारियों के साथ दोनों देशों के

अशुभ कर्म फल से बचने को करे वज्रध्वज विधि से कार्य



काराणसी (एसएससी)। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे वैधिवर्षाकार के 25वें आयोजन में प्रोफेसर हरिप्रसाद अग्रिकारी ने बताया जो अनुकूल कर्म करता है वह अशुभ के तार में तबड़ का तार तबे पर रख दिया जाता है। एवं तबड़ का खंडन से उग्रके करीर के दूरके मुकड़े विना जोते है। आता इस अशुभ कर्म फल से बचने के लिये व्यक्ति को वज्र ध्वज विधि के अनुष्ठान कार्य कराने चाहिए। आचार्य हरिप्रसाद ने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों से नहीं हटाना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति कर्मों से हटा है वह पप का भारीदार होता है। वैधिवर्षा फलते है कि व वैशाल परिशिष्ट व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए अशुभ समान प्रथिपों से भेदु धार रखना चाहिए। आचार्य अग्रिकारी ने कहा कि किसी भी शक को फल से भेद कर प्रथिप नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति सख्त सख्तता का पालन करता हुआ अपने कर्म से सदा सर्वथ सन्नेह होता है वह वैधिवर्षा के मार्ग पर अग्रसर गलत गलत है। इस प्रकार जीवन तपस्वी अनेक धर्मों का कर्ता होता है। इस अवसर पर कुलपति सहायदास सुकल, अग्रसेनान उच्च प्रत्यायन एवं छात्राध्यक्ष उपस्थित रहे।

31/01/2021-21-21

फ्रांस व संस्कृत विवि के बीच होगा शैक्षणिक आदान-प्रदान

जनरल सहायदास, बलरानी : शैक्षिक आदान-प्रदान करने के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने फ्रांस से सम्बंधित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जल्द ही करार होवे। करार होने के बाद दोनों संस्थाओं के शिक्षकों व विद्यार्थियों एक दूसरे के विद्यालयों में भेजे जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। फ्रांस से करार के संबंध में गुस्वार को परिसर स्थित योग साधना केंद्र के संवाद कला में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक पर फ्रांस दूतावास की अधिकारी फरिया कमीसी ने कहा कि संपूर्णानंद से फ्रेंच व संस्कृत दोनों भाषाओं में रोजगार की अवसर संभव है। करार होने से भारतीय शास्त्रों को शाखाएं फ्रांस तक पहुंचेंगी। कहा कि भारतीय सनातन धर्म संस्कृति में मानव व प्रकृति के

प्रति आर्य समाज्य भारतीयता का एक अद्भुत स्वरूप है। अग्रसेनान करने हुए आधुनिक भाषा विज्ञान के प्रो. कुला चंद्र दुबे ने बताया कि विश्वविद्यालय में फ्रेंच भाषा की भी पढ़ाई होती है। ऐसे में संस्कृत के ज्ञापन विद्यार्थी फ्रेंच भाषा को समझ है। समझते से उन्हें फ्रेंच को समझने में और सहूलियत होगी। बैठक में फ्रांस दूतावास को अधिकारी मैरिलिन लेटीन, छात्र कल्याण संकायध्यक्ष प्रो. एम पूजन पंडेय, डा. राजा पाठक, सरोज मित्र सहित अन्य लोगों ने विचार व्यक्त किया। स्वागत कुलसचिव राजवहादुर, संयोजन अनिल कुमार चतुर्वेदी व धन्यवाद ज्ञापन प्रो. रमेश प्रसाद ने किया। दूतावास की दोनों अधिकारियों ने सहस्त्रे भवन में पंडुलिपियों का भी अवलोकन किया।

31/01/2021-21-21

संपूर्णानंद का फ्रांस के साथ होगा शैक्षणिक करार

काराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और फ्रांस के बीच जल्द ही शैक्षणिक आदान-प्रदान पर करार होगा। वृत्तस्थित्वर को फ्रांस दूतावास के प्रतिनिधिगण्डल ने फ्रेंच और संस्कृत के आर्य समाज्य पर भी सहमति जताई। प्रतिनिधिगण्डल सरकारी भवन और पंडुलिपियों को देखकर अभिभूत हो गया। वृत्तस्थित्वर को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में फ्रांस दूतावास के अधिकारी फरिया कमीसी एवं मैरिलिन लेटीन के साथ विधि अधिकारियों की बैठक हुई। पत्रिका में कहा कि फ्रेंच और संस्कृत के मिलने से यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। संस्कृत और फ्रेंच के समन्वय से भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं संस्कृत भाषा तथा भारतीय शास्त्रों का प्रसार फ्रांस में होगा। संस्कृत विश्वविद्यालय और फ्रांस के मध्य शीघ्र ही शैक्षणिक आदान-प्रदान करार होगा।

डॉ. संपूर्णानंद की रचनाएं समाज का दर्पण

130वीं जयंती पर शहर भर में याद किए गए डॉ. संपूर्णानंद

आमर उजाला व्यूरो

वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ. संपूर्णानंद की 130वीं जयंती मनाई गई। बुधवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि काशी विद्यापीठ के मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान के निदेशक प्रो. ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि डॉ. संपूर्णानंद ने संस्कृत कायदा को हिंदी व अंग्रेजी में रूपान्तरित कर आम लोगों के लिए रखा। भारतीय ज्ञान संस्कृति को आभार बनाकर आगे बढ़ाना ही उनकी कुशल दृष्टि थी। उनके द्वारा रचित पुस्तकें आज भी समाज और राष्ट्र के लिए सजीव दर्पण सिद्ध हो रही हैं।

अभ्यसाह करते हुए संस्कृत विधि के प्रतिभुलपति प्रो. हेमराम कछवाह ने कहा कि संपूर्णानंद जी नाम के अनुसूच ही संपूर्ण थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करके संस्कृत, संस्कृति एवं संस्कार की रक्षा का अनुभव उदाहरण प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि प्रो. जिनोद कुमार शर्मा ने कहा कि संपूर्णानंद जी सदैव संस्कृत, अंग्रेजी एवं हिंदी का समन्वय स्थापित करते चलते रहे। जगन्नाथपुरी संस्कृत विश्वविद्यालय उड़ीसा के पूर्व कुलपति प्रो. गंगाधर पंडा ने कहा कि मनुष्य धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है जो अपने कर्मों से अमर होता है वही इतिहास का साथी होता है। इस दौरान प्रो. रामकिशोर त्रिपाठी, डॉ.

डॉ. संपूर्णानंद जी का योगदान अविस्मरणीय है। एक जनवरी 1890 को जन्मे डॉ. संपूर्णानंद ने 80 वर्षों के जीवनकाल में कई ऐसे उल्लेखनीय काम किए। विश्वविद्यालय की स्थापना में काशी में डॉ. विपुली जगन्नाथ सिंह, पूर्व कुलपति श्री कमलमणी त्रिपाठी के साथ पूर्व कुलपति डॉ. संपूर्णानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से काशी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षक सेवाएं दीं। देश की युवावस्था पर उन्होंने बौद्धिक छोड़ दी और फिर खम्बू विषयमाद पूर्ण के अध्ययन पर शतशत परत कोषदान से जुड़े। जवाब पर पहले काशी की मुद्रालय को अक्षर देने के साथ ही तत्कालीन उस्ता अहमद के नेतृत्व में वेधशाला स्थापित कराने का श्रेय भी उनके ही है। - प्रो. राजाराम शुक्ल, कुलपति, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय



तेलियाबाग में संपूर्णानंद जी का 5

राजनीति में उदयदत्त और कुटुंबाजी के बिना काम नहीं चलता है, जबकि साहित्य की सभना रीति और एकलपतावादी है। मगर, डॉ. संपूर्णानंद का साहित्य और राजनीति पर समान अधिकार था। राजनीतिक विमोचनियों के बावजूद उनकी रचनाएं आज भी समाज को नई दिशा दे रही हैं। परंपराओं और आधुनिकता का समन्वय उनके व्यवहार में झलकता था। यह संस्कारों को महत्व देने थे, लेकिन पोगान्ती नहीं थे। राजनीतिक जीवन में भी उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा। - डॉ. जिनोद नाथ मिश्र, वरिष्ठ साहित्यकार



दिनेश गर्ग, प्रो. सुधाकर मिश्र, प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी, प्रो. प्रेमनाथराय सिंह आदि मौजूद रहे।

माता कुलपति महोदय
 कृपया पत्र
 22/01/20

विश्वविद्यालय-टीसीएस के बीच बनी सहमति

संस्कृत विवि और टीसीएस में करार जल्द

वाराणसी | वरिष्ठ संगठनदाता

प्रगति की ओर

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों को निजी क्षेत्र के लिए रोजगार योग्य बनाने की पहल मूर्त रूप लेने लगी है। विश्वविद्यालय और टीसीएस (टाटा फंसलटेंसी सर्विसेज) के बीच जल्दी ही एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर होंगे।

दो महीने पहले बंगलुरु में टीसीएस के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ल के साथ बातचीत हुई थी। कई अन्य संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इस बात पर चर्चा हुई थी कि संस्कृत के छात्रों को मुख्यभारत के रोजगार के लक्ष्य बनाया जाए।

टीसीएस ने इसके लिए सहयोग पर सहमति जताई थी। इसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय और टीसीएस के अधिकारी एक-दूसरे से बातचीत कर रहे थे। काशी के आवाहन-प्रदान भी हुआ। टीसीएस ने यहां का सिलेक्शन मांगा था। अब सहमति बन गई है। माना

- एमओयू से पहले टीसीएस ने संस्कृत विधि के सेलेक्शन का किया अध्ययन
- टीसीएस के विशेषज्ञ यहां के छात्रों को देंगे प्रशिक्षण

जा रहा है कि टीसीएस की टीम जल्द ही विश्वविद्यालय आएगी।

विश्वविद्यालय ने पाठ्यलिपियों के डिजिटलाइजेशन का प्रस्ताव भी दिया था। मगर अभी उस पर सहमति नहीं बन पाई है। माना जा रहा है कि प्रशिक्षण से छात्रों को लाभ मिलेगा। बार-बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि संस्कृत और संस्कृत के छात्रों को कंप्यूटर से जोड़ा जाए, इससे उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे।

कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ल का कहना है कि जल्दी ही एमओयू होने वाला है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। टीसीएस के विशेषज्ञ यहां के छात्रों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देंगे। किंतु कार्य इस साल से शुरू हो जाएगा।

दैनिक जागरण 02-1-2020 (5)

राष्ट्र प्रवर्तक व कुशल राजनीतिज्ञ थे डा. संपूर्णानंद

जान, वाराणसी : डा. संपूर्णानंद राष्ट्र प्रवर्तक व कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने संस्कृत व सनातन धर्म को अपने जीवन में उठाया। कुशल शिक्षक, विचारक, साहित्यकार के साथ ज्योतिष विद्या में भी उनकी अच्छी पकड़ थी।

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित डा. संपूर्णानंद की जयंती पर थे ज्यों बचताओं में कहीं। मुख्य वक्ता पत्रकारिता संस्थान,

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के निदेशक प्रो. ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि डा. संपूर्णानंद में भारतीय ज्ञान संस्कृति को आभार बनाकर आगे बढ़ाने की दृष्टि थी। अभ्यसाह करते हुए प्रतिभुलपति प्रो. हेमराम कछवाह ने कहा कि डा. संपूर्णानंद ने विश्वविद्यालय की स्थापना कर संस्कृत, संस्कृति व संस्कार संरक्षित करने का कार्य किया। विशिष्ट अतिथि आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के अध्यक्ष प्रो. जिनोद कुमार ने थे।